



सत्यमेव जयते



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 14, 1989 (आश्विन 22, 1911)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 14, 1989 (ASVINA 22, 1911)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अपसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(सेना शाखा)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 1989

सं० 1382, दिनांक 25-9-89—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

सं० 1381, दिनांक 6-9-89—वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में स्थानान्तरण होने पर राष्ट्रपति, सुश्री शकुन्तला, भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड सी ई) को 6 सितम्बर, 1989, पूर्वाह्न से रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पुनर्वास महानिदेशालय

श्री ए०एन० दुबे की उप-निदेशक (एग्रीकल्चर) ग्रुप "ए" (राजपत्रित) के रूप में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर ह० 3700-125-4700-150-5000 के वेतनमान में दिनांक 06-09-89 (पूर्वाह्न) से नियुक्ति की जाती है।

गृह मंत्रालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से स्थानान्तरण होने पर राष्ट्रपति, श्री राजीव लोचन, भारतीय सांख्यिकी सेवा को 8 सितम्बर, 1989, पूर्वाह्न से रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री दुबे दो वर्ष की अवधि के लिए परखाधीन रहेंगे जो सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ायी जा सकती है।

गो० भी० बडवाडिगि, अवर सचिव

श्री के० एम० गाय परीक्षक को 31-8-89 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक स्थानापन्न आधार पर पर्यवेक्षकी परीक्षक (राजपत्रित ग्रुप बी०) नियुक्त किया जाता है। श्री

के० ए० राय को 2 वर्ष की अवधि के लिए परखाधीन रखा जायेगा, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

श्री ईकबाल शाह सिंह, सहायक को 06-9-89 (अप-राह) से अगले आदेश जारी होने तक, ए०एफ०एच० क्यू० की सिविल सेवा में स्थानापन्न आधार पर ए० सी० एस० ओ० के पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री ईकबाल शाह सिंह दो वर्ष की अवधि के लिए परखाधीन पर होंगे। यह अवधि सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

निम्नलिखित सहायकों (ग्रुप 'बी'—अराजपत्रित) को उनके नामों के आगे लिखी तिथियों से राजस्व सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक सिविलियन स्टाक अधिकारी (ग्रुप वी राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है :—

1. श्री जे०एस० ननराय—01-9-1989
2. श्री जी०आर० तनेजा—01-9-1989

टी० एस० स्याल, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
(रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा)

सं० 1383, दिनांक 5-9-89 —राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम 1979 के नियम 8(क) के निर्बंधनों के अनुसार ली गई सीमित विभागीय परीक्षा 1988 को पास करने पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई स्थापना में और तारीख से दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर :—

नाम	स्थापना	तारीख
1. श्रीमती रीता चौधरी	रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	29-6-89 (पूर्वाह्न)
2. एस वी एस एन एन डी राजेश्वर राव	रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	29-6-89 (पूर्वाह्न)
3. श्री एस राजेन्द्र प्रसाद	रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	29-6-89 (पूर्वाह्न)
4. श्री डी सत्यनारायण	रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	29-6-89 (पूर्वाह्न)

5. श्री रवि भास्कर राव विस्फोटक अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला सैल, हैदराबाद

एम० एल० अरोड़ा, सहायक निदेशक (कार्मिक)

सेना विभाग

(सैनिक अभियंता सेवाएं)

सं० 1384, दिनांक 26-6-89—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिशासी अभियंताओं को उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से अगले आदेशों तक अधीक्षक अभियंताओं के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

(a) एम ई एस/8464430, श्री जे एल रामचन्द्रानी, स्थाई सुपरिटेण्डेंट भवन/सड़क ग्रेड-I, अस्थाई अधिशासी अभियंता—13 जून 88 (पूर्वाह्न)

(b) एम ई एस/235008, श्री प्रभाकर श्रीकान्ध, स्थाई सहायक अधिशासी अभियंता, अस्थाई अधिशासी अभियंता—10 अगस्त 88 (पूर्वाह्न)

(c) एम ई एस/160004, श्री विनायक श्रीनिवास देशपाण्डे, स्थाई सहायक अधिशासी अभियंता, अस्थाई अधिशासी अभियंता—07 जुलाई 88 (पूर्वाह्न)।

(d) एम ई एस/450327, श्री श्रद्धामन्व दहिया, स्थाई सहायक अधिशासी अभियंता, अस्थाई अधिशासी अभियंता—17 जून 88 (पूर्वाह्न)

(e) एम ई एस/135003, श्री कारुमाची लक्ष्मण राव, स्थाई सहायक अधिशासी अभियंता, अस्थाई अधिशासी अभियंता—03 मई 88 (पूर्वाह्न)

(f) एम ई एस-300021, श्री ज्ञान चन्द्र स्थाई सहायक अधिशासी अभियंता, अस्थाई अधिशासी अभियंता—09 मई 88 (पूर्वाह्न)

(g) एम ई एस-446144, श्री सालिग राम त्यागी, स्थाई अधिशासी अभियंता—05 नवम्बर 88 (पूर्वाह्न)।

राष्ट्रपति, एम ई एस/445038 श्री देवेन्द्र गुप्ता, स्थाई अधीक्षक सर्वेक्षक सक्कर्म को 01 अगस्त 89 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक मुख्य सर्वेक्षक सक्कर्म के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

थल सेना शाखा

विद्युत और यांत्रिक इन्जिनियरी कोर

सं० 1385, दिनांक 14-8-89—राष्ट्रपति, श्री राजेश कुमार को अस्थाई वर्कशाप अधिकारी ग्रुप 'ए' के रूप में

(विद्युत गौर यांत्रिक इंजिनियरी कोर में दिनांक 10 अप्रैल-1989 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। यह अधिकारी दो वर्ष के कार्यकाल तक परख अवधि पर रहेगा।

आर आर कौशल, अवर सचिव

सेना शाखा

सं० 1386, दिनांक 28-7-1989—निम्नलिखित जे० सी० ओ० को सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

रेजिमेन्टल आयोग

निम्नलिखित जे०सी०ओ० को दिनांक 10 सितम्बर 1988 से सेना अनुदेश 18(84) के अन्तर्गत संलिखित सेनांग में लेफ्टिनेंट के पद पर रेजिमेन्टल आयोग अनुदान किया जाता है :—

जे०सी०-113369 वाई सूबेदार गुलजार सिंह (आर० सी०-367 ए)

इसकी ज्येष्ठता जे०सी०-102610 ए सूबेदार अशोक कुमार (आर०सी०-366) के नीचे और जे०सी०-112365 सूबेदार लालचन्व (आर०सी०-369) के ऊपर है।

वाई० सी० गुप्ता, ले० कर्नल

राष्ट्रीय कैंडेट कोर

सं० 1387, दिनांक 18-7-89—राष्ट्रपति, निम्नलिखित को कमीशन प्रदान करते हैं :—

वरिष्ठ प्रभाग (नौ सेना स्कन्ध)

एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट के रूप में

तमिलनाडु

रामलिंगम कंदसामी (एन सी सी एन/28016)—15 मई 1988।

बी०वी० महापात्र, उप महानिदेशक (पी एण्ड एफ)

सेना मुख्यालय

सं० 1388, दिनांक 20-9-89—परख अवधि पूरी होने पर, राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर की नियुक्ति को पक्का करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

2/लेफ्टिनेंट शशी शेखर प्रसाद सिंह, टी ए-41868, इंजीनियर्स, 30 अप्रैल 1984।

2/लेफ्टिनेंट विनोद कुमार उत्तम, टी ए-41866, इंजीनियर्स, 30 अप्रैल 1984।

2/लेफ्टिनेंट उपेन्द्र नाथ मलहोत्रा, टी ए-41882, इंजीनियर्स, 04 जून 1984।

2/लेफ्टिनेंट सुरेन्द्र कुमार शर्मा, टी ए-41885, इंजीनियर्स, 04 जून 1984।

2/लेफ्टिनेंट मानीक्य भूषण चक्रवर्ती, टी ए-41870, इंजीनियर्स, 30 अप्रैल 1984।

2/लेफ्टिनेंट सुभाष चन्द्र अग्रवाल, टी ए-41877, इंजीनियर्स, 30 अप्रैल 1984।

2/लेफ्टिनेंट रामदेव पंडित, टी ए-41879, इंजीनियर्स, 30 अप्रैल 1984।

2/लेफ्टिनेंट कृष्ण शंकर पराशर, टी ए-41883, इंजीनियर्स, 04 जून 1984।

2/लेफ्टिनेंट असोक रंजन तपादार, टी ए-41865, इंजीनियर्स, 30 अप्रैल 1984।

2/लेफ्टिनेंट उदित कुमार गुच्, टी ए-41884, इंजीनियर्स, 04 जून 1984।

2/लेफ्टिनेंट सुरेश कुमार बतरा, टी ए-41888, इंजीनियर्स, 04 जून 1984।

2/लेफ्टिनेंट एस० बालासंकरन टी ए-41871 इंजीनियर्स 30 अप्रैल 1984।

2/लेफ्टिनेंट मोहन लाल गान्धी, टी ए-41889, इंजीनियर्स, 04 जून 1984।

2/लेफ्टिनेंट सुरेन्द्र कुमार राणा, टी ए-41886, इंजीनियर्स, 04 जून 1984।

2/लेफ्टिनेंट हरविन्द्र सिंह आनन्द, टी ए-41869, इंजीनियर्स, 30 अप्रैल 1984।

2/लेफ्टिनेंट शैलेन्द्र कुमार सिंह, टी ए-41880, इंजीनियर्स, 30 अप्रैल 1984।

एच० डी० सिन्हा, अवर सचिव

सं० 1389, दिनांक 20-9-89—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

आयुध अनुसंधान तथा विकास स्थापना, पुणे के निम्नलिखित "डी" वैज्ञानिकों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से इसी स्थापना में स्थानापन्न वैज्ञानिक "ई" के पद पर :—

सर्वश्री

1. पी०एन० गाधिकर—1-7-88 (पूर्वाह्न)

2. ए०बी० परांजवे—8-7-88 (पूर्वाह्न)

3. एस०बी० मिगले—1-7-88 (पूर्वाह्न)

4. पी०के० राय —1-7-88 (पूर्वाह्न)

वैज्ञानिक विश्लेषण ग्रुप, दिल्ली की वैज्ञानिक "बी" श्रीमती अनु खोसला को 01-7-1988 (पूर्वाह्न) से इसी ग्रुप में स्थानापन्न वैज्ञानिक "सी" के पद पर।

विस्फोटक अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, पुणे के श्री आर०के० स्याल, वैज्ञानिक "डी" को 1-7-88 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक "ई" के रूप में।

अनुसंधान तथा विकास मुख्यालय के श्री पी०पी० सबरवाल, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, ग्रेड 2 को 6-9-1989 (पूर्वाह्न) से इसी मुख्यालय में स्थानापन्न वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी ग्रेड 1 के रूप में।

नरसिंह दास, सहा०निदेशक(कार्मिक)

(सेना विभाग)

सं० 1390, दिनांक 15 सितम्बर 1989—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

हरबन्स लाल (आई०सी०-19237 एम) ए एस सी—
16 दिसम्बर 1988

बी डी जोशी (आई०सी०-19241 पी) ए एस सी—
16 दिसम्बर 1988

एम एस सोढी (आई०सी०-19244 एच) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

के एस गुरंग (आई०सी०-19247 डब्ल्यू) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

बी एस गुरंग (आई०सी०-19248 वाई) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

के एस मेहता (आई०सी०-19259 एल) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

टी ए श्रीवास्तवा (आई०सी०-19260 ए) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

के के मिश्रा (आई०सी०-19262 एल) ए ई सी—
16 दिसम्बर 1988

एस बी जसबिन्दर सिंह (आई०सी०-19266) आर्टी-
लरी—16 दिसम्बर 1988

ए के रजक (आई०सी०-19269 पी) ए एन सी—
16 दिसम्बर 1988

जे आर राजपूत (आई० सी०-19272 पी) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

एस सी सांगवान (आई०सी०-19278) ए एस सी—
16 दिसम्बर 1988

एस एन पाण्डे (आई०सी०-19279 वाई) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

एच एस शेखावत (आई०सी०-19280) आरटीलरी—
16 दिसम्बर 1988

पी एस बेदी (आई०सी०-19282 वाई) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

सतीश चन्दर (आई०सी०-19283 एफ) आरटीलरी—
16 दिसम्बर 1988

एस डी बालूनी (आई०सी०-19284 के) ए एस
सी—16 दिसम्बर 1988

के एल जस्पल (आई०सी०-19286 पी) ए ओ
सी—16 दिसम्बर 1988

के डी जेठानी (आई०सी०-19291) आरटीलरी—
16 दिसम्बर 1988

पी जी रोये (आई०सी०-19292 एच) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

पी एल मोंगा (आई०सी०-19293 एल) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

वी के भाटिया (आई०सी०-19295 डब्ल्यू) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

धरम सिंह (आई०सी०-19297 एफ) इनफैंटरी—16
दिसम्बर 1988

अखण्ड प्रताप सिंह (आई० सी०-19300 के) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

प्रेम सिंह (आई०सी०-19298 के) पायनियर कोर—
16 दिसम्बर 1988

आर पी बहुगुना (आई०सी०-19301 वाई) ए एस
सी—16 दिसम्बर 1988

एस झा (आई०सी०-19303 के) ए एस सी—16
दिसम्बर 1988

एस के सरीन (आई० सी०-19313 एन) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

सुरीन्दर पाल सिंह (आई०सी०-19315 वाई) ए
ओ सी—16 दिसम्बर 1988

के बी जपाल (आई०सी०-19321 एम) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

आर द्विवेदी (आई०सी०-19325 एच) ए ओ सी—
16 दिसम्बर 1988

डी एस बाया (आई०सी०-19327 एन) ए ई सी—
16 दिसम्बर 1988

एस सी उपाध्याय (आई०सी०-19374 एल) ए ई सी—16 दिसम्बर 1988

के सी सिमक (आई०सी०-26349 पी) ए एस सी—20 दिसम्बर 1988

एल एस यादवा (आई०सी०-26438 एम) ए एस सी—20 दिसम्बर 1988

आर आई डी राजन (आई०सी०-26442 डब्ल्यू) इन-फेंटरी—20 दिसम्बर 1988

के सी सिन्हा (आई०सी०-23915 बाई) सिगनल—21 दिसम्बर 1988

बी नन्वा (आई०सी०-24060 एन) इंजीनियर—21 दिसम्बर 1988

आर एस ठाकुर (आई०सी०-24097 पी) ई एम ई—21 दिसम्बर 1988

आर सी शर्मा (आई०सी०-24102 एफ) इंजीनियर—21 दिसम्बर 1988

डी के शर्मा (आई०सी०-24105 एच) सिगनल—21 दिसम्बर 1988

बी के राना (आई०सी०-24112 बाई) ई एम ई—21 दिसम्बर 1988

पी सी गोतम (आई०सी०-24120 एक्स) सिगनल—21 दिसम्बर 1988

आर सी पंज (आई०सी०-24122 एच) ई एम ई—21 दिसम्बर 1988

एस जे मोरडकई (आई०सी०-24123 एल) सिगनल—21 दिसम्बर 1988

बी सुब्रामनियन (आई०सी०-24127 एफ) सिगनल—21 दिसम्बर 1988

आर के गुप्ता (आई० सी०-24136 एच) ई एम ई—21 दिसम्बर 1988

पी एम राओ (आई०सी०-24139 डब्ल्यू) ई एम ई—21 दिसम्बर 1988

जी वैकटेश्वरा राओ (आई०सी०-24140 एल) सिगनल—21 दिसम्बर 1988

बाई रामानाथन शास्त्री (आई०सी०-24142 डब्ल्यू) एम ई—21 दिसम्बर 1988

ए एन धरमाराजन (आई०सी०-24147 पी) सिगनल—21 दिसम्बर 1988

आर नारायनन (आई०सी०-24152 ए) सिगनल—21 दिसम्बर 1988

ई बालाचन्द्रन (आई०सी०-24153 एच) इंजीनियर—21 दिसम्बर 1988

डी एम आर विनोद (आई०सी०-24158 एफ) इंजीनियर—21 दिसम्बर 1988

पी सिन्हा (आई०सी०-24161 एफ) ई एम ई—21 दिसम्बर 1988

आर के भटनागर (आई०सी०-24165 एक्स) इंजीनियर—21 दिसम्बर 1988

ओ पी शर्मा (आई०सी०-17213 के) ए ओ सी—25 दिसम्बर 1988

के एस बाजवा (आई०सी०-26095 एच) आरमड कोर—28 दिसम्बर 1988

पी डी पाटिल (आई० सी०-19039 एफ) इन्फेंटरी—16 दिसम्बर 1988

एस एस प्रधान (आई० सी०-19057 के) आरटीलरी—16 दिसम्बर 1988

ओ पी गुलिया (आई० सी०-19081 ए) ए ओ सी—16 दिसम्बर 1988

आर के आरया (आई० सी०-19085 डब्ल्यू) ए एस सी—16 दिसम्बर 1988

डी एस रबांटा (आई० सी०-19103 एन) इन्फेंटरी—16 दिसम्बर 1988

एम जे बरघीज (आई०सी०-19095 ए) ए एस सी—16 दिसम्बर 1988

पी क्षीरोही (आई०सी०-19112 पी) ए एस सी—16 दिसम्बर 1988

पी मेनगुप्ता (आई०सी०-19136 बाई) ए ओ सी—16 दिसम्बर 1988

आर एस छिपारा (आई०सी०-19141 के) आरटीलरी—16 दिसम्बर 1988

डी बी आर नाथर (आई०सी०-19143 पी) आरटीलरी—16 दिसम्बर 1988

एम भुनिया (आई०सी०-19167 बाई) ए ओ सी—16 दिसम्बर 1988

बलविन्दर सिंह (आई०सी०-19169 के) ए एस सी—16 दिसम्बर 1988

ए एन चतुर्वेदी (आई०सी०-19171 एफ) इन्फेंटरी—16 दिसम्बर 1988

यू एस छेत्री (आई०सी०-19176 ए) इन्फेंटरी—16 दिसम्बर 1988

प्रताप सिंह (आई०सी०-19188 पी) आरटीलरी—16 दिसम्बर 1988

एम के रामादासन (आई०सी०-19191 पी) इन्फेंटरी—16 दिसम्बर 1988

एस एन शर्मा (आई०सी०-19194एच) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

के एन भट्ट (आई०सी०-19196एन) ए ई सी—16
दिसम्बर 1988

पी रंगा रात्रो (आई०सी०-19200एल) आरटीलरी
—16 दिसम्बर 1988

बी के लिम्बू (आई०सी०-19201एन) इनफैंटरी—
16 दिसम्बर 1988

सुदरेश्वर सिंह (आई०सी०-19202 डब्ल्यू) इनफैंटरी
—16 दिसम्बर 1988

डी के जोशी (आई०सी०-19209ए) इंजीनियर—
16 दिसम्बर 1988

अमर सिंह राना (आई०सी०-19210पी) ए एस
सी—16 दिसम्बर 1988

एम एस जाधव (आई०सी०-19211एक्स) इनफैंटरी
—16 दिसम्बर 1988

एस के मण्डल (आई०सी०-19212ए) ए एस सी—
16 दिसम्बर 1988

राम सिंह (आई०सी०-19214एल) ए एस सी—
16 दिसम्बर 1988

आर एल शर्मा (आई०सी०-19218एफ) आरटीलरी
—16 दिसम्बर 1988

हरविद्याल सिंह (आई०सी०-19220 वाई)—16
दिसम्बर 1988

ओ पी यादव (आई०सी०-19226ए) आरटीलरी—
16 दिसम्बर 1988

एस एन बेनरजी (आई०सी०-19231 एल) इनफैंटरी
—16 दिसम्बर 1988

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेंट बर्नल के मूल रैंक में (समय मान
द्वारा)—

पी नामग्याल (आई०सी०-17098पी) इनफैंटरी—
15 सितम्बर 1988

आर एम शर्मा (आई०सी०-26251एफ) ए एस सी—
16 सितम्बर 1988

एल एस राठौर (आई०सी०-28478पी) इनफैंटरी—
03 अक्टूबर 1988

अनिल तब्रोतरा (आई०सी० 26483ए) आरमड कोर
—03 अक्टूबर 1988

बी सी मामगेन (आई०सी० 26493के) आरमड कोर
—03 अक्टूबर 1988

जी एम बिष्ट (आई०सी०-26662ए) इनफैंटरी—
03 अक्टूबर 1988

आर वैन्टारमन (आई०सी०-26680एच) इनफैंटरी
—03 अक्टूबर 1988

लै० कर्नल वाई०सी० गुप्ता, सहायक सेना
सचिव

थल सेना विभाग

सं० 1391, दिनांक 21-9-89 --राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अधिकाारियों की पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन से मेजर

बी०सी० पांडा (आई०सी०-29750) सिग्नल—
16 जून 79।

एस० के० मोहन (आई०सी०-17510) इन्फैंट्री
25 दिसम्बर 79।

राम लाल (आई०सी०-23207) ए० एस० सी०
5 सितम्बर 88।

आर० स्वामीनाथन (आई०सी०-28813) इंजिनियर्स
—05 सितम्बर 1988

आर० एन० बाजपेई (आई०सी०-29001) एओ सी,
आर० सी० कथुरिया (आई० सी०-29081) ई एम ई और
अजय भाटिया (आई०सी०-29083) इन्फैंट्री—05 सितम्बर
1988

के०के० नागल (आई०सी०-27152) ई एम ई—31
मार्च 1983।

जुजर्ट विक्टर (आई० सी०-29240) सिग्नल—04
फरवरी 1985

ए०के० मोहन (आई० सी०-295532) ए० ओ०सी०—
05 सितम्बर 1988

रघबीर सिंह (आई० सी०-29819) सिग्नल—05
सितम्बर 1986

(वेतन और भत्ते के लिए 05 सितम्बर 88)

एस०के० मेहुंदीरता (आई०सी०-29874) एएससी
—05 सितम्बर 86।

(वेतन और भत्ते के लिए 05 सितम्बर 88)

के०पी०एम० नायर (एस०एल०-3584)—07 सितम्बर
1988

बी० सूर्यवंशी (आई० सी०-33127) इन्फैंट्री और
धिनोद मिल्टन (आई० सी०-33224) ए० ओ० सी०—18
अक्टूबर, 1984।

(वेतन और भत्तों के लिए 05 सितम्बर 88)

आर० एम० जून (आई० सी०-25719), आर्टी, 24 अगस्त, 1987, अनिल सूद (आई० सी०-25704), सिगनरुस ए० एम० महोता, (आई० सी०-25696), विजय थोट (आई० सी०-25733) ए० एम० बी० और बी० एम० मागवान (आई० सी०-25683), ए० ओ० सी०-24 मई, 1987।

(वेतन और भत्ते के लिए 07 सितम्बर, 1987)

आर० मालेदत (आई० सी०-32392), इंजीनियर्स, जुगल हिशोर (आई० सी०-32203), डी० के० श्रीवास्तवा (आई० सी०-32413), ए० एस० सी०, बी० रामाम्बामी (आई० सी०-32368) ए० ओ० सी० और जे० एम० इण्टेली रोजमेयर (आई० सी०-32113) इन्टेली-14 अगस्त, 1985।

(वेतन और भत्ते के लिए 17 नवम्बर, 1986)

सी० पी० वर्गीज (आई० सी०-32477) इन्टेलीजेंस-06 अगस्त, 1984।

(वेतन और भत्ते के लिए 17 नवम्बर, 1986)

सुप्रिया सेन (आई० सी०-30288) ई० एम० ई० और एष० सी० बम्बर (आई० सी०-30313) इंजीनियर्स-13 अप्रैल, 1988

(वेतन और भत्ते के लिए 05 सितम्बर, 1988)

पी० ए० कुमार (आई० सी०-33315) इंटेलिजेंस-31 जनवरी, 1985।

(वेतन और भत्ते के लिए 07 सितम्बर, 1987)।

वाई० के० सिंह (आई० सी०-33394) ए० सी०-31 जनवरी, 1985।

(वेतन और भत्ते के लिए 05 सितम्बर, 1988)।

अमोलक सिंह (आई० सी०-27136) ए० एम० सी०-5 जनवरी, 1988।

(वेतन और भत्ते के लिए 5 सितम्बर, 1988)

बी० बी० वसन्ध (आई० सी०-36650) इंजीनियर्स-19 मई, 1985।

(वेतन और भत्ते के लिए 01 जून, 1988)।

एस० बी० कुलकर्णी (आई० सी०-32678) आर्टी, जोषी पुरषोत्तम (आई० सी०-32664) सिगनल, आर० एस० ठिठंसा (आई० सी०-32539) ए० एस० सी० और वाई० के० गोखले (आई० सी०-32606) ए० ओ० सी०-27 नवम्बर, 1984।

धरनजीत सिंह (आई० सी०-32576) आर्टी-27 मई, 1985।

(वेतन और भत्ते के लिए 07 सितम्बर, 1987)

ए० ए० नानितार (आई० सी०-33508) ए० एस० सी०, एन० एस० सिद्ध (आई० सी०-33597) ए० एस० सी०, डी० जे० राव (आई० सी०-33632) ए० एस० सी०, बी० पी० ए० तावर (आई० सी०-33649) इन्फैन्ट्री और डी० बहादुर (आई० सी०-33599) आर्टी-26 जून, 1985।

(वेतन और भत्ते के लिए 07 सितम्बर, 1987)।

के० एस० सहरावत (आई० सी०-30544) इन्फैन्ट्री-16 जून, 1989

स्वाई कमीशन

2/लेफ्टिनेंट मे लेफ्टिनेंट

अनुज कुमार माधुर (आई० सी०-41704) ए० एम० सी०-17 दिसम्बर, 1985।

(परन्तु वेतन और भत्ते 6 जनवरी 86 से दिए जाएं)।

एम० एस० गुरंग (आई० सी०-27468) आर्टी-13 अप्रैल 1987 और सी० के० घासुदेव (आई० सी०-30774) ई० एम० ई०-12 अप्रैल 1987।

(वेतन और भत्ते के लिए 05 सितम्बर, 1988)।

ओम प्रकाश (आई० सी०-31638) ए० के० होलकर (आई० सी०-31745) इन्फैन्ट्री, के० एल० डी० जी० रोज (आई० सी०-31752) इन्टेलिजेंस, आर० डी० महता (आई० सी०-31794) इन्टेलिजेंस एस० एम० गोपालन (आई० सी०-31839) इन्फैन्ट्री, एस० पी० साही (आई० सी०-31875) आर्टीलरी-13 जून, 1987।

बी० एस० सिद्ध (आई० सी०-30908) और आर० एस० वर्मा (आई० सी०-30916) आर्टी-05 सितम्बर, 1986।

(वेतन और भत्ते के लिए 05 सितम्बर, 1988)।

बी० उदय शंकर (आई० सी०-31307) इंजीनियर्स-18 अक्तूबर, 1986)।

(वेतन और भत्ते के लिए 05 सितम्बर, 1988)।

बी० एन० थोड़ा (आई० सी०-27808) आर० रामामूर्ति, (आई० सी०-27867) सिगनल-29 अक्तूबर, 1986।

(वेतन और भत्ते के लिए 05 सितम्बर, 1988)।

एस० देवाशीसमानी (आई० सी०-33983) आर्टी, और डी० वैद्यनाथर (आई० सी०-36025) ई० एम० ई०-05 सितम्बर, 1988।

(वेतन और भत्ते के लिए 05 सितम्बर 1988)।

जी० एल० गुप्ता (आई० सी०-36560) ई० एम० ई० और एम० पी० स्वामी (आई० सी०-36573) इंजीनियर्स-21 अप्रैल, 1987।

आर० वालामुन्दरम (आई० सी०-37150) ई० एम० ई०-16 मई, 1987।

जे० के० बोरमानी (आई० सी०-37312) इंजीनियर्स-31 अक्तूबर 1987।

आर० एस० पठानियां (आई० सी०-30226) ए० ओ० सी० और एन० जी० लेम्बपूरी (आई० सी०-30002) आर्टीलरी 5 सितम्बर 1986।

(वेतन और भत्ते के लिए 5 सितम्बर 1988)।

राजेन्द्र सिंह (आई० सी०-34812) इन्फैन्ट्री)--17
दिसम्बर, 1988 ।

ए० के० मल्होत्रा (आई० सी०-36790) आर्टिलरी, आई०
जे० एस० भुलनर (आई० सी०-36801), एम० एल० उवान
(आई० सी०-36804) इन्फैन्ट्री, अरुण कुमार (आई०
सी०-36806) आर्मर्ड कोर, हरीपाल सिंह (आई० सी०-
36812) आर्टिलरी, बलीप कुमार (आई० सी०-36827)
ई० एम० ई०, लखबीर सिंह (आई० सी०-36833) आर्टिलरी,
के० के० शर्मा, (आई० सी०-36837) आर्टिलरी, एन० एस०
गुतिलयां आई० सी०-36846) इन्फैन्ट्री, सुतिन्द्र जीत सिंह
आई० सी०-36858) आर्टिलरी यू० एस० छाबड़ा (आई०
सी०-36867) इन्फैन्ट्री, पी० एन० सोहन (आई० सी०-
36724), देस राज (आई० सी०-36733), रणजीत सिंह
(ए० सी०-36746), परमजीत सिंह (आई० सी०-36753)
आर्टिलरी, ए० के० तुली (आई० सी०-36769) ई० एम० ई०,
ए० पी० सिंह (आई० सी०-36775) आर्टिलरी, पी० के०
एनारमनी (आई० सी०-36778) इंजीनियर्स--20 अप्रैल,
1988 ।

वाई० सी० गुप्ता,
लेफ्टि कर्नल
डी० ए० एम० एस० 8-सी

यलसेना विभाग

संख्या 1392, दिनांक 21 सितम्बर, 1989--राष्ट्रपति
निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

2/लेफ्टिनेंट मे लेफ्टिनेंट

ए० ए० पोल (आई० सी०-43733) इन्फैन्ट्री, धोगेश सहगल
(आई० सी०-43734) इंजीनियर, राजीव थापर (आई० सी०-
43737) इन्फैन्ट्री, एस० पराथाभारथी (आई० सी०-43738)
सिगनल, राहुल श्रीवास्तवा (आई० सी०-43739) इन्फैन्ट्री,
धीरज चन्दोला (आई० सी०-43740) सिगनल, नरेश राता
(आई० सी०-43742) इन्फैन्ट्री, आर० आर० सिंह (आई० सी०-
43743) इन्फैन्ट्री, बी० डी० जोशी (आई० सी०-43744)
इंजीनियर, गोविन्द सिंह (आई० सी०-43745) इन्फैन्ट्री,
संजीव खिल्ला (आई० सी०-43747) ए० सी०, वाई० एम०
रेडू (आई० सी०-43748) मेक/इन्फैन्ट्री, एम० एस० नाटू
आई० सी०-43749) ए० एम० सी०, जी० एस० विर्क (आई०
सी०-43750) इन्फैन्ट्री, बी० एस० अजला (आई० सी०-
43751) इन्फैन्ट्री, आर० राजिव (आई० सी०-43752)
सिगनल, आर० एस० यादव (आई० सी०-43754) इन्फैन्ट्री,
ए० सी० बी० सिंह (आई० सी०-43755) इंजीनियर, संजीव,
लगेह (आई० सी०-43756) इन्फैन्ट्री, थोमस एम० सी०
(आई० सी०-43758) इन्फैन्ट्री, एम० बी० केशर (आई०

सी०-43759) मेक/इन्फैन्ट्री, गुरीन्द्र सिंह (आई० सी०-
43760) इंजीनियर, एम० एल० सिद्धु (आई० सी०-43761)
ए० सी०, नॉरन भारती (आई० सी०-43762) इन्फैन्ट्री,
नरेन्द्र सिंह (आई० सी०-43765) इन्फैन्ट्री--14 जून,
1988 ।

एम० वी० सिंह (आई० सी०-44014) ए० ई० सी०,
बी० बन्दोपाध्याय (आई० सी०-44019) ए० ओ० सी०,
बी० एम० प्रताप (आई० सी०-44020) ए० ई० सी०--14
जून 1988 ।

आशुतोष काले (आई० सी०-43766) इन्फैन्ट्री, एम० के०
रस्तोगी (आई० सी०-43768) इन्फैन्ट्री, शशीभूषण (आई०
सी०-43770) इन्फैन्ट्री आर्मीन्ट्र सिंह (आई० सी०-43772)
इन्फैन्ट्री, नरेश कुमार (आई० सी०-43773) ए० एम० सी०,
पी० के० माथुर (आई० सी०-43775) सिगनल, ए० के०
रोहल्मा (आई० सी०-43776) इन्फैन्ट्री, पी० पी० आंक
आई० सी०-43777) आर्टिलरी, अजय केला (आई० सी०-
43778) ई० एम० ई०, दीपक बनर्जी (आई० सी०-43780)
इन्फैन्ट्री, आर० पी० शर्मा (आई० सी०-43782) इन्फैन्ट्री,
के० एस० महारावत (आई० सी०-43785) इन्फैन्ट्री, ए० के०
कालिया (आई० सी०-43785) सिगनल, रंजेश्वर खान
(आई० सी०-43786) ए० सी०, पी० वी० जनार्दन (आई०
सी०-43787) इंजीनियर, संदीप जतली (आई० सी०-
43788) ए० ओ० सी०, विवेक मूथाना (आई० सी०-43789)
इन्फैन्ट्री, एम० यू० रेड्डी (आई० सी०-43791) सिगनल,
जे० के० चौरनिया (आई० सी०-43793) इन्फैन्ट्री, समीर
गुप्ता (आई० सी०-43796) आर्टिलरी, बी० के० पटपाटिया
(आई० सी०-43799) इन्फैन्ट्री, आर० बी० सिंह (आई०
सी०-43802) इन्फैन्ट्री, अनुल कोषर (आई० सी०-43805)
इन्फैन्ट्री, जयदेव के० (आई० सी०-43807) सिगनल,
एम० बी० सिंह (आई० सी०-43808) ए० सी०--14 जून,
1988 ।

विश्वनाथ (आई० सी०-43811) इन्फैन्ट्री, बी० के०
भालासिंह (आई० सी०-43813) इन्फैन्ट्री, के० ए० कटारिया
(आई० सी०-43816) ए० ए० सी०, निताश जी० रेलकर
(आई० सी०-43817) सिगनल, आर० एन० पाण्डे (आई०
सी०-43818) आर्टिलरी, ए० पी० कुमार (आई० सी०-
43819) इन्फैन्ट्री, गोपीरेड्डी एम० रेड्डी (आई० सी०-
43820) इन्फैन्ट्री, एन० एन० संगत (आई० सी०-43821)
ए० एम० सी०- एन० आर० बाबू (आई० सी०-
43822) इन्फैन्ट्री, एच० एन० अलख (आई० सी०-43824)
ए० ए० सी०, ए० के० एम० श्रीधरन (आई० सी०-43825)
इंजीनियर, एम० एम० नारायणन, (आई० सी०-43827)
इंजीनियर, अशोक कुमार (आई० सी०-43828) इन्फैन्ट्री, आर०
एस० हुडा, (आई० सी०-43829) इन्फैन्ट्री, बैनी सेबस्टीयन

(आई० सी०- 43830) इन्फैन्ट्री, बी० एन० खादीलकर (आई० सी०- 43831) मिगनल, राजिन्द्र कमार (आई० सी०- 43837) मिगनल, आर० बी० पाटिल (आई० सी०- 43840) ए० ओ० सी०, गौतम के० एन० (आई० सी०- 43841) इन्फैन्ट्री, आदिश यादव (आई० सी०- 43843) इन्फैन्ट्री, बी० एस० नहाल (आई० सी०- 43844) आर्टिलरी (आई० सी०- 43846) इन्फैन्ट्री विरेन्द्र सिंह (आई० सी०- 43845) इन्फैन्ट्री, अरुण कुमार (आई० सी०- 43846) इन्फैन्ट्री, विरेन्द्र सिंह (आई० सी०- 43851) ए० सी०, विजया कमार (आई० सी०- 43852) इन्फैन्ट्री, गुरजित सिंह (आई० सी०- 43853) इन्फैन्ट्री ए० सी० जे० सरपोतदार (आई० सी०- 43855) मेक/इन्फैन्ट्री मनजीत कुमार (आई० सी०- 43858) सिगनल-14 जून, 1988।

सनतानो घोष (आई० सी०- 43962) इन्फैन्ट्री, आई० जे० सिंह (आई० सी०- 43953) मेक/इन्फैन्ट्री, ए० सी० के० संगठन (आई० सी०- 43954) इन्फैन्ट्री, के० आर० नेयर (आई० सी०- 43955) इंजीनियर, संदीप शांकला (आई० सी०- 43956) इन्फैन्ट्री, विक्रम सिंह (आई० सी०- 43958) इन्फैन्ट्री, ए० सी० बी० सिंह (आई० सी०- 43959) इन्फैन्ट्री, प्रवीण विक्रम (आई० सी०- 43961) इन्फैन्ट्री, साहजी जेकाव (आई० सी०- 43963) ए० ओ० सी०, पीयूष अग्निहोत्री (आई० सी०- 43964) इंजीनियर, बी० पी० सिंह (आई० सी०- 43965) इन्फैन्ट्री, संजय कपूर (आई० सी०- 43966) इंजीनियर, राकेश जूनेजा (आई० सी०- 43969) सिगनल संजीव शर्मा (आई० सी०- 43971) इन्फैन्ट्री, अरुण मिश्रवानी (आई० सी०- 43972) ए० ओ० सी०, ए० सी० के० तुन्वी (आई० सी०- 43973) इन्फैन्ट्री, आलोक शर्मा (आई० सी०- 43974) ई० ए० ई०, ए० सी० के० विन्हा (आई० सी०- 43976) आर्टिलरी, अरुण कृष्णन कुट्टी, (आई० सी०- 43977) इन्फैन्ट्री, सुदर्शन सिंह (आई० सी०- 43979) इन्फैन्ट्री, चन्द्र शेखर (आई० सी०- 43982) इंजीनियर, नवीन सन्होत्रा (आई० सी०- 43984) आर्टिलरी, ए० सी० के० सामन्ता (आई० सी०- 43986) मिगनल, पी० के० बालिया (आई० सी०- 43988) इन्फैन्ट्री, बाई० बी० ए० जामवाल (आई० सी०- 43989) ए० ए० सी०, बी० आर० कुमार (आई० सी०- 43993) ए० ए० सी०- 14 जून, 1988।

फलगुनी मुखर्जी (आई० सी०- 43903) इन्फैन्ट्री, ए० पी० सिंह, (आई० सी०- 43904) इन्फैन्ट्री, डी० ए० सी० चौहान (आई० सी०- 43905) इन्फैन्ट्री, के० के० शर्मा (आई० सी०- 43907) मिगनल, विश्वजीत सिंह (आई० सी०- 43909) ए० ए० सी०, अशिम जोशी (आई० सी०- 43910) इन्फैन्ट्री परद टण्डन (आई० सी०- 43912) ए० ए० सी०, ए० सी० के० प्रह्लादाश्र (आई० सी०- 43913) इंजीनियर, ए० के० पात्रो, (आई० सी०- 43915) आर्टिलरी, आर० के० तलवार (आई०

सी०- 43916) ए० ओ० सी०, राजीव मंडल (आई० सी०- 43918) इन्फैन्ट्री, अणु सिंह (आई० सी०- 43919) इन्फैन्ट्री, जे० के० राज (आई० सी०- 43921) इन्फैन्ट्री, शाहीरुल इल्ताम (आई० सी०- 43922) इन्फैन्ट्री, राजिव कपूर (आई० सी०- 43923) इन्फैन्ट्री, ए० ए० सी० गिल (आई० सी०- 43926) ए० ए० सी०, रमेश कुमार (आई० सी०- 43927) इन्फैन्ट्री, अभय सिंह (आई० सी०- 43930) ए० ए० सी०, विरेन्द्र सिंह (आई० सी०- 43931) इन्फैन्ट्री, अरुण पाण्डे (आई० सी०- 43935) इन्फैन्ट्री, सुगथन बी० के० (आई० सी०- 43937) इन्फैन्ट्री, ए० सी० बी० द्वारलेकर (आई० सी०- 43939) इंजीनियर, आर० ए० सी० लोडम (आई० सी०- 43941) ए० ए० सी०, संजय छेत्री (आई० सी०- 43943) इन्फैन्ट्री, ममित्री दास (आई० सी०- 43946) ई० ए० ई०, श्रीगन्ता चौधरी (आई० सी०- 43948) इन्फैन्ट्री, जे० ए० सी० बखशी (आई० सी०- 43949) ए० सी०- 14 जून, 1988।

कल्याण सिंह (आई० सी०- 43688) इन्फैन्ट्री, पी० ए० बाजवा (आई० सी०- 43689) इन्फैन्ट्री, वी० शर्मा (आई० सी०- 43691) ए० ए० सी०, रविन्द्र सिंह (आई० सी०- 43693) ए० सी०, ए० ए० सी० टगार (आई० सी०- 43695) इंजीनियर, सर्वजीत सिंह (आई० सी०- 43696) ए० ओ० सी०, पटन जल्ली राहुल (आई० सी०- 43702) आर्टिलरी, बी० आर० शर्मा (आई० सी०- 43705) इन्फैन्ट्री, आर० के० शर्मा (आई० सी०- 43706) मिगनल, पी० पटनायक (आई० सी०- 43708) इन्फैन्ट्री, दीपक सन्होत्रा (आई० सी०- 43711) मिगनल, ए० बी० के० शिवल (आई० सी०- 43712) इंजीनियर, आर० सन्होत्रा, (आई० सी०- 43713) इन्फैन्ट्री, पी० के० सिंह (आई० सी०- 43715) इन्फैन्ट्री, मकुंद शर्मा (आई० सी०- 43717) इंजीनियर, डी० ए० सी० यादव (आई० सी०- 43718) इन्फैन्ट्री, ए० ए० सी० उबाम (आई० सी०- 43719) इन्फैन्ट्री अरुण त्रिपाठी (आई० सी०- 43720) ए० सी० डी० के० सिंह (आई० सी०- 43722) इन्फैन्ट्री, ए० सी० के० पंत (आई० सी०- 43723) ए० ए० सी०, ए० सी० के० कटीयार (आई० सी०- 43725) इन्फैन्ट्री, बहादुर सिंह (आई० सी०- 43727) ए० ओ० सी०, आर० गवसेना (आई० सी०- 43729) इन्फैन्ट्री विकरान्त नयर (आई० सी०- 43730), ए० सी०, संदीप पाण्डे (आई० सी०- 43731) इन्फैन्ट्री- 14 जून, 1988।

ममरेन्द्रा मोहन कुमार (आई० सी०- 43653) मेक/ इन्फैन्ट्री, आर० ए० सी० कटारिया (आई० सी०- 43654) मेक/ इन्फैन्ट्री, के० विनोद कुमार (आई० सी०- 43655) सिगनल, हरी सिंह (आई० सी०- 43658) इंजीनियर, मधुीर कुमार (आई० सी०- 43659) ई० ए० ई०, संजय बखर (आई० सी०- 43660) ए० सी०, आर० पिल्लई बी० (आई० सी०- 43661) ई० ए० ई०, संजीव मुंज (आई० सी०- 43662) ए० सी०, निरुण द्विवेदी (आई० सी०- 43663) मेक/इन्फैन्ट्री, ए० के० सोनी (आई० सी०- 43664) इंजीनियर, महेल सिंह (आई० सी०- 43665) ए० सी०, बन्वीर सिंह (आई० सी०- 43666) ए० सी०, गुनील कुशर ए० सी० (आई० सी०- 43668) इन्फैन्ट्री, शिव पात्र सिंह (आई० सी०- 43669)

इन्फेन्ट्री, अमरजीत सिंह (आई० सी०-43670) ए० सी०, आर० के० चिकारा (आई० सी०-43671) इन्फेन्ट्री, मुझाम् वर्मा (आई० सी०-43672) ए० आर० सी०, एम० आर० आगा (आई० सी०-43675) सिगनल, राजिन्द्र सिंह (आई० सी०-43676) इन्फेन्ट्री, जी० पी० एम० निसोदिया (आई० सी०-43679) इन्फेन्ट्री, ए० कर्माकर (आई० सी०-43681), इन्फेन्ट्री, ए० के० सामन्तरा (आई० सी०-43682) इन्फेन्ट्री, जे० बी० चौधरी (आई० सी०-43684) इन्फेन्ट्री, भूपेन्द्र सिंह (आई० सी०-43685) इन्फेन्ट्री, मंजीव राय (आई० सी०-43686) इन्फेन्ट्री धिवक शर्मा (आई० सी०-43687) इन्फेन्ट्री--14 जून, 1988 ।

ए० च० ए० ग० गिल (आई० सी०-43859) ए० एम० सी०, एम० बी० कदम (आई० सी०-43860) इन्फेन्ट्री, अजय आहुजा (आई० सी०-43882) इंजीनियर, मंजय पाण्डे (आई० सी०-43865) इन्फेन्ट्री, ए० एम० गाढे (आई० सी०-43867) सिगनल, विष्वाजीत क्षम (आई० सी०-43868) इन्फेन्ट्री, एम० सी० शर्मा (आई० सी०-43870) सिगनल, एम० के० जैना (आई० सी०-43871) इन्फेन्ट्री, प्रदीप भाटिया (आई० सी०-43872) इन्फेन्ट्री, विजय महता (आई० सी०-43875) इन्फेन्ट्री, यू० मुन्तरम (आई० सी०-43878) इन्फेन्ट्री, मुनील चतुर्वेदी (आई० सी०-43880) ए० एम० सी० सुपरिग्रो भट्टाचार्या (आई० सी०-43882) इंजीनियर, सुरेश शर्मा (आई० सी०-43883) ए० एम० सी०, एन० के० सिंह (आई० सी०-43885) इन्फेन्ट्री, अणु देगी (आई० सी०-43887) ए० एम० सी०, ए० के० जी० कमोजी (आई० सी०-43888) इंजीनियर, ए० के० सधमेना (आई० सी०-43889) इन्फेन्ट्री, के० एम० उषल (आई० सी०-43890) ए० आर० सी० पवन महरोबा, (आई० सी०-43891) इन्फेन्ट्री, विरेण बहादुर (आई० सी०-43894) इन्फेन्ट्री, एम० पी० एम० रांगे (आई० सी०-43896) सिगनल, संदीप सूद (आई० सी०-43897) इन्फेन्ट्री, आर० एम० हंस (आई० सी०-43898) ई० एम० ई०, ए० एम० महेश्वरी (आई० सी०-43899) इन्फेन्ट्री--14 जून 1988 ।

ए० आर० चन्दोरकर (आई० सी०-44190) इन्फेन्ट्री—
20 दिसम्बर 1988 ।

योगेश चन्द्र गुप्ता,
लेफ्टिनेंट कर्नेल,
ए० एम० एम० 8

थल सेना शाखा

सं० 1393, दिनांक 25 नवम्बर, 1989--राष्ट्रपति
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

ग्रामूचना कोर

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार (लिपिक) अशोक कुमार तिवारी (जे० सी०-
07411ए०)--01 अगस्त, 1989 ।

हवलदार गुरमीत सिंह (सं० 1258699पी० अब जे० सी०
185145पी०) 24 जून 1989 ।

(नायब सूबेदार के पद में बिना श्रेतन और भर्तों पर प्रभाव
डाब्ले विना वरिष्ठता 01 अप्रैल 1989 में दी जाती है) ।

हवलदार रामजी सिंह यादव (सं० 13849052एफ०
अब जे० सी०-185146एफ०-01 जून 1989 ।

हवलदार जगमल सिंह (सं० 1259380एफ० अब जे०
सी०-185147ए०)--01 जुलाई, 1989 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के पद में

हवलदार (लिपिक) शाही मोहन हजारीका (सं० 6646061
वाई० अब जे० सी०-185148ए०)--01 जुलाई, 1989 ।

हवलदार (लिपिक) मोहन सिंह भंडारी (सं० 6646448एफ
अब जे० सी०-185149ए०)--01 जुलाई, 1989 ।

हवलदार (लिपिक) बेला सिंह चंदेल (सं० 1444693
एम अब जे० सी०-185150ए०)--01 जुलाई, 1989 ।

हवलदार (लिपिक) जयवन्त सिंह (सं० 1285571एन
अब जे० सी०-185588डब्ल्यू)--01 जुलाई, 1989 ।

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जे० सी०-135385डब्ल्यू)--
01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार रघुनाथ सिंह (जे० सी०-136023एफ०)
01 अगस्त, 1999 ।

नायब सूबेदार कणमीर सिंह (जे० सी० 134451एफ)
01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार विरेन्वर सिंह कृष्णवाह (जे० सी०
136025एम अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार शिव शरण सिंह (जे० सी० 137156के
01 अगस्त 1989 ।

नायब सूबेदार हृदय नारायण पाणवान (जे० सी०-
136091पी०) --01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार हकम सिंह (जे० सी० 137500के
01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार चन्द्र सिंह रावत (जे० सी०-137157एम)
01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार राधा बल्लभ जोशी (जे० सी०
137501एम) 01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार नरेश चंद्र भट्ट जे० सी० 137160एफ
01 अगस्त 1989 ।

नायब सूबेदार वैद्यनाथ राय (जे० सी०-149324ए०)
01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार तेज बहादुर राय (जे० सी०-137503एफ०)
01 अगस्त, 1989 ।

वि० धर्माबाब
ईस्ते अधिकारी

(थल सेना विभाग)

सं० 1394, दिनांक 25-9-89—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

नापखाना रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार शिवराज सिंह (सं०-143122414 एवम अब
जे०सी०-185589 वाई)—01 अप्रैल 1988

बीएचएम राम भज (सं०-1287412पी अब जे०
सी०-185590एन)—01 जुलाई 1988

हवलदार राम लखन त्रिपाठी (सं०-1251159एन
अब जे०सी०-185591 डब्ल्यू)—29 अगस्त 1988

हवलदार विषय नाथ सिंह (सं०-1242576 वाई अब
जे०सी०-185592 वाई)—21 दिसम्बर 1988

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 88)

हवलदार परमानन्द (सं०-8019400 वाई अब जे०
सी०-185593 एफ)—16 सितम्बर 1988

हवलदार जगदीश (सं०-1279799एन अब जे० सी०-
185594 के)—23 सितम्बर 1988

हवलदार अमरीक सिंह (सं०-1260677पी अब जे०
सी०-185595 एन)—26 सितम्बर 1988

हवलदार राम बहादुर सिंह (सं०-13809283पी
अब जे०सी०-185596पी)—01 अक्टूबर 1988

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 1988)

हवलदार मुर्बे सिंह (सं०-1262339 डब्ल्यू अब जे०
सी०-185597 एक्स)—13 जनवरी 1989

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1988)

बीएचएम दादासाहेब देसाई (सं०-1298743 डब्ल्यू
अब जे०सी०-185598ए)—13 अक्टूबर 1988

हवलदार दणरथ सिंह चौहान (सं०-1254531 एल
अब जे०सी०-185599 एच)—1 नवम्बर 1988

हवलदार अनन्त राम (सं०-12438099 एफ अब जे०
सी०-185600 एन)—16 नवम्बर 1988

हवलदार प्रताप सिंह यादव (सं०-1264850 एल अब
जे०सी०-185601पी)—20 फरवरी 1989

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988)

हवलदार पान्डुरंग सांभाजी लोखान्डे (सं०-1257813
पी अब जे०सी०-185602 एक्स)—17 दिसम्बर 1988

हवलदार प्रीतम चन्द नागरा (सं०-1251744 एम
अब जे०सी०-185603 ए)—07 जनवरी 1989

हवलदार परगट सिंह (सं०-1252159ए अब जे०
सी०-185604एच)—18 जनवरी 1989

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 12 जनवरी 1989)

हवलदार विष्णु रामा उदेंकर (सं०-1263305पी अब
जे०सी०-185605एल)—25 जनवरी 1989

हवलदार राज नाथ सिंह (सं०-1247750 के अब
जे०सी०-185606 एन)—28 जनवरी 1989

हवलदार वामदेव (सं०-1264040 एच अब जे०सी०-
185607 डब्ल्यू)—01 फरवरी 1989

हवलदार जय प्रकाश (सं०-13856464 एल अब जे०
सी०-185608 वाई)—06 फरवरी 1989

हवलदार हेमराज बार्मा (सं०-13856380 वाई अब
जे०सी०-185609 एफ)—06 फरवरी 1989

हवलदार के मैथ्यू (सं०-14323516 के अब जे०सी०-
185610 डब्ल्यू)—20 फरवरी 1989

हवलदार कारिमपिल स्कोरियम वरुधिग (सं०-
14307564 ए अब जे०सी०-185611 वाई)—20 फरवरी
1989

हवलदार तेजिन्दर सिंह (सं०-1238108एफ अब
जे०सी०-185612एफ)—01 मार्च 1989

हवलदार राम कृशन यादव (सं०-1244778 वाई
अब जे०सी०-185613 के)—01 मार्च 1989

बीएचएम रतबीर सिंह (सं०-1290712एफ अब
जे०सी०-185614एम)—01 मार्च 1989

हवलदार ख्याली राम बुगालिया (सं०-1262243
एन अब जे०सी०-185615पी)—01 अप्रैल 1989

हवलदार बन्ना सिंह (सं०-14303743 एच अब जे०
सी०-185616एक्स)—01 अप्रैल 1989

हवलदार गुरदियाल सिंह (सं०-1290155 एन अब
जे०सी०-185617एए)—01 जनवरी 1989

टी०बी० नायर, डैस्क अधिकारी

सं० 1395, दिनांक 25-9-1989।—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

कोर आफ इंजिनियर्स

मद्रास इंजिनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार के आनन्दन (सं०-1361049एफ अब जे०
सी०-182632 के)—16 दिसम्बर 1988

हवलदार एम वलीयप्पन (सं०-1354054 के अब जे०
सी०-182633एम)—01 नवम्बर 1988

हवलदार यु श्रीधरन (सं०-1357951 एन अथ जे० सी०-182634 पी) 01 नवम्बर 1988

हवलदार मुनिक्कण्डु (सं०-1348509 वाई अथ जे० सी०-182635 एक्स)--01 नवम्बर 1988

हवलदार एन महेन्द्रन (सं०-1352080 एम अथ जे० सी०-182636 ए)--10 नवम्बर 1988@

हवलदार गोविन्दराज गंगाधरन (सं०-1354043 ए अथ जे० सी०-182637 एच)--07 दिसम्बर 1988@

हवलदार जी जीवराजनम (सं०-1357000 एच अथ जे० सी०-182638 एन)--01 दिसम्बर 1988

हवलदार पिचामुथु (सं०-1350502 एन अथ जे० सी०-182639 एन)--01 दिसम्बर 1988

हवलदार दानियल पी वी (सं०-1360709 एफ अथ जे० सी०-182640 एच)--01 दिसम्बर 1988

हवलदार विजय पान्डीयन एम (सं०-1362083 एन अथ जे० सी०-182641 एल)--01 दिसम्बर 1988

हवलदार कुमार उमरे साब चम्मन्ना (सं०-1357753 ए अथ जे० सी०-182642 एन)--01 दिसम्बर 1988

हवलदार सधनापल्लि सुब्बा राव (सं०-1357912 एम ए० अथ जे० सी०-182643 डब्ल्यू)--02 दिसम्बर 1988@

हवलदार लंगनाथन जी (सं० 1359159 एक्स अथ जे० सी० 182644 वाई)--01 दिसम्बर 1988

हवलदार मुनिशर्मा (सं० 1350006 एम अथ जे० सी० 182645 एफ)--01 दिसम्बर 1988

हवलदार गुस्ताथ मांगने (सं० 1361298 ए अथ जे० सी० 182646 के०)--06 दिसम्बर 1988@

हवलदार गोविन्दशर्मा (सं० 1353660 एका अथ जे० सी० 182647 एम)--01 दिसम्बर 1988

हवलदार आर कुण्ठन (सं० 1358032 एन अथ जे० सी० 182648 पी)--05 जनवरी 1989@

हवलदार गुराप्पा कुम्बर (सं० 14520604 वाय अथ जे० सी० 182649 एक्स)--01 दिसम्बर 1988

हवलदार आर पद्मनाभन (सं०-1354060 एक्स अथ जे० सी०-182650 एम)--01 दिसम्बर 1988

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 88 से दी जायेगी)

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 88 से दी जायेगी)

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 88 से दी जायेगी)

नियमित सेना

कोर आफ इन्जिनियर्स

अथवा इन्जिनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

हवलदार क्लर्क शोब महबूब साहिब (सं०-1352588 डब्ल्यू अथ जे० सी०-182624 एल)--01 नवम्बर 1988

हवलदार क्लर्क रामशामी सुब्बरायलु (सं० 1352762 एक्स अथ जे० सी० 182625 एन) 01 नवम्बर 1988

हवलदार क्लर्क स्वामी कस्तु पीटर (सं०-1352905 एम अथ जे० सी०-182626 डब्ल्यू)--01 नवम्बर 1988

हवलदार क्लर्क पन्डरावेद वेंकटेश मुर्दायि थंगवेलु (सं०-1352909 एच अथ जे० सी०-182627 वाई)--27 नवम्बर 1988@

हवलदार क्लर्क अश्वनिअम्मा वेलुश्वामी (सं०-1349005-एल अथ जे० सी०-182628 एफ)--20 नवम्बर 1988*

हवलदार क्लर्क मुथय्या रामशामी (सं०-1343490 एफ अथ जे० सी०-182629 के०)--01 नवम्बर 1988

नायब सूबेदार (एन के टी) के रैंक में

हवलदार एमकेटी करुणय्या पौलशर्मा (सं०-1352661 के० अथ जे० सी०-182630 वाई)--05 अक्टूबर 1988

हवलदार एमकेटी जयश्रीलन आर (सं०-13602190 एन अथ जे० सी०-182631 एफ)--01 नवम्बर 1988

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 88 से दी जायेगी)

*(एक्सलैटेड पदोन्नति और नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 88 से दी जायेगी)

अजीत बहल, अथवा सचिव

नियमित सेना

कोर आफ इन्जिनियर्स

अथवा इन्जिनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

हवलदार वलीप सिंह (सं० 1536929 एल० अथ जे० सी० 182623 एच०)--08 दिसम्बर, 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1988 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

हवलदार राम घन (सं० 1532924 ए० अथ जे० सी०-182609 डब्ल्यू०)--20 मई, 1988।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों सहित 20 मई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार भागीरथ गूळंग (सं० 1540448 एफ० अथ जे० सी०-182610 एल०)--26 नवम्बर, 1988।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों सहित ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार निरू साल (सं० 1538863 वाई० अथ जे० सी०-182611 एन०)--24 नवम्बर, 1988।@

हवलदार किशन सल्लु (सं० 1540466 के० अथ जे० सी०-182612 डब्ल्यू०)--05 दिसम्बर 1988।@

हवलदार बपी के पणिय (सं० 1539098 एन अथ जे० सी० 182613 वाई०)--10 दिसम्बर, 1988।@

हवलदार महेंद्र सिंह यादव (सं० 1540305 एफ० अब जे० सी० 182614 एफ०)---14 दिसम्बर, 1988।@

हवलदार सैहल सिंह (सं० 1537302 एच० अब जे० सी०-182615 के)---31 दिसम्बर 1988।@

हवलदार चन्द्रा प्रताप सिंह (सं० 1538716 एक्स अब जे० सी०-182616 एम०)---31 दिसम्बर, 1988।@

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार मोहन लाल (सं० 1539053 एन० अब जे० सी०-182617 पी०)---09 दिसम्बर, 1988।ई

हवलदार मोहन सिंह (सं० 1540458 एल० अब जे० सी०-182618 एक्स०)---09 दिसम्बर, 1988।ई

हवलदार बिलबारा सिंह (सं० 1539650 एच० अब जे० सी०-182619 ए०)---16 दिसम्बर, 1988।ई

हवलदार सावन्त कृष्णन (सं० 1540459 एन० अब जे० सी०-182620 पी०)---16 दिसम्बर 1988।ई

हवलदार ज्ञान सिंह (सं० 1533869 एफ० अब जे० सी०-182621 एक्स०)---05 जनवरी, 1989।ई

ई (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार यशपाल सिंह (सं० 1540573 एल अब जे० सी० 182622 ए०)---02 फरवरी 1989।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1989 से दी जायेगी)।

हवलदार हरनेक सिंह (सं० 1565775 एक्स अब जे० सी०-182571 एक्स)---20 अगस्त, 1988।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1988 से दी जायेगी)।*

हवलदार कनवल सिंह (सं० 1539451 पी० अब जे० सी०-182572 ए०)---19 सितम्बर, 1988।*

हवलदार रेशम सिंह (सं० 1538741 ए० अब जे० सी०-182573 ए०)---11 दिसम्बर 1988।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार सरवन सिंह (सं० 1533085 ए० अब जे० सी०-182574 एल०)---19 नवम्बर, 1988।**

हवलदार अशाखा सिंह (सं० 1541835 एच० अब जे० सी०-182575 एन०)---21 नवम्बर, 1988।**

हवलदार साबोर अमी अनसारी (सं० 1565695 पी० अब जे० सी०-182576 डब्ल्यू०)---25 नवम्बर 1988।**

हवलदार दर्शन सिंह (सं० 1538775 एन० अब जे० सी०-182577 आई०)---28 नवम्बर 1988।**

हवलदार अमरीक सिंह (सं० 1534383 एच० अब जे० सी०-182578 एफ०)---28 नवम्बर, 1988।**

हवलदार साधु चन्द शर्मा (सं० 1538366 ए० अब जे० सी०-182579 के)---05 दिसम्बर, 1988।**

हवलदार शामराव बोलाके (सं० 1537433 एन० अब जे० सी० 182580 आई०)---09 दिसम्बर 1988।**

हवलदार गुरचरन सिंह (सं० 1565182 एल० अब जे० सी०-182581 एफ०)---19 दिसम्बर 1988।**

हवलदार तारा सिंह (सं० 1564782 एफ० अब जे० सी०-182582 के)---20 दिसम्बर 1988।**

हवलदार बकतौर सिंह (सं० 1541220 एक्स० अब जे० सी०-182583 एम०)---20 दिसम्बर, 1988।**

हवलदार के० बानाकृष्णा पिल्लै (सं० 1564573 के अब जे० सी०-182584 पी०)---21 दिसम्बर 1988।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार बबनराव माने (सं० 1566193 के अब जे० सी०-182585 एक्स०)---10 नवम्बर, 1988।@

हवलदार गुरदेव सिंह (सं० 1538763 आई० अब जे० सी०-182586 ए०)---10 नवम्बर, 1988।@

हवलदार उत्तम जगताप (सं० 1566014 आई० अब जे० सी०-182587 एच०)---15 नवम्बर 1988।@

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 1539692 पी० अब जे० सी०-182588 एल०)---19 नवम्बर, 1988।

हवलदार शेख मोरूदीन (सं० 1565443 एन अब जे० सी०-182589 एन०)---20 नवम्बर 1988।@

हवलदार बालासाहेब ईयापे (सं० 1565959 डब्ल्यू० अब जे० सी० 182590 एच०)---23 नवम्बर 1988।@

हवलदार शिन्दे हनुमन्त (सं० 1539014 पी० अब जे० सी०-182591 एल०)---05 दिसम्बर 1988।@

हवलदार गुरदेव सिंह (सं० 1565867 के अब जे० सी०-182592 एन०)---08 दिसम्बर 1988।@

हवलदार रेशम सिंह (सं० 1539081 ए अब जे० सी० 182593-डब्ल्यू०)---26 दिसम्बर, 1988।@

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार कश्मीर सिंह (सं० 1539157 पी अब जे० सी०-182594 आई०)---15 दिसम्बर 1988।ई

हवलदार प्रभात भामने (सं० 1565650 ए० अब जे० सी०-182595 एफ०)---19 दिसम्बर 1988।ई

हवलदार छज्जू सिंह (सं० 1539128 ए अब जे० सी०-182596 के)---20 दिसम्बर 1988।ई

हवलदार शेहनाद संयद (सं० 1539861 एल अब जे० सी०-182597 एम०)---20 दिसम्बर 1988।ई

हवलदार गुरनाम सिंह भटोया (सं० 1542709 एच० अब जे० सी० 182598 पी०)---20 दिसम्बर 1988।ई

हवलदार नामदेव मोरे (सं० 1539474 डब्ल्यू० अब जे० सी० 182599 एक्स०)---21 दिसम्बर 1988।ई

हवलदार जयचन्द (सं० 1565607 एक्स अब जे० सी०-182600-एफ०)---21 दिसम्बर 1988।ई

हवलदार कसरुदीन अहमद (सं० 1540527 डब्ल्यू० अब जे० सी०-182601 के)---21 दिसम्बर 1988।ई

हवलदार बलेर सिंह (सं० 1536931 एन अब जे० सी०-182602 एम०)---22 दिसम्बर 1988।ई

हवलदार सार्लूके श्रीरंग पांडुरंग (सं० 1540339 पी० अब जे० सी० 182603 पी०)---24 दिसम्बर 1988।ई

हवलदार मकबूल आलम (सं० 1534607 एम० अन्न जे० सी०-182604 एम०)---26 दिसम्बर 1988ई

हवलदार निर्मल मिह (सं० 1540564 के अन्न जे० सी०-182605 ए०)---27 दिसम्बर 1988ई

हवलदार शंकर सानूके (सं० 1539487 एन अन्न जे० सी०-282606 एम०)---01 जनवरी, 1989ई

हवलदार वस्ता राम यावव (सं० 1565501 एम अन्न जे० सी०-182607 एम०)---04 जनवरी, 1989ई

हवलदार साहबराज काशीनाथ सनप (सं० 1540687 इम्ल्यू० अन्न जे० सी०-182608 एन०)---05 जनवरी, 1989ई

ई(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों जपर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार माला राम आर्या (सं० 1536886 एम० अन्न जे० सी०-182570 पी०)---26 अक्टूबर 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1988 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (कलकं जी० डी०) के रैंक में

हवलदार विठल माहती साठे (सं० 1540418 के अन्न जे० सी०-182566 एम०)---17 सितम्बर, 1988।*

हवलदार सुभर मिह गोखावत (सं० 1540018 एक्स अन्न जे० सी०-182567 पी०)---28 अक्टूबर 1988।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1988 से दी जायेगी)

हवलदार ब्रिज बिहारी तिवारी (सं० 1540462 एन अन्न जे० सी०-182568 एम०)---24 अक्टूबर, 1988।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार अंग्रेज सिंह सन्धु (सं० 1540512 एन अन्न जे० सी०-182569 ए०)---24 नवम्बर, 1988।@

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार विलास धौगुले (सं० 1565758 एक्स अन्न जे० सी०-182552 एम०)---25 सितम्बर 1988।X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार शिकें रामचन्द्रा अमरत (सं० 154159 ए अन्न जे० सी०-182553 पी०)---20 अक्टूबर 1988।*

हवलदार परसराम श्री किशन राजत (सं० 1541780 के अन्न जे० सी०-182554 एम०)---20 अक्टूबर 1988।*

हवलदार किल्लेदार जनार्दन व्येकटेश (सं० 1541518 एफ० अन्न जे० सी०-182555 ए०)---22 अक्टूबर 1988।*

हवलदार अम्बलक हुसैन (सं० 1541559 एल० अन्न जे० सी०-182556 एम०)---24 अक्टूबर 1988।*

हवलदार कृष्णा वासुले (सं० 1541445 ए अन्न जे० सी०-182557 एल०)---29 अक्टूबर 1988।*

हवलदार जगदीप सिंह (सं० 1451016 इम्ल्यू० अन्न जे० सी०-182558 एन०)---21 नवम्बर 1988।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार सूर्यकान्त चव्हाण (सं० 1565877 एन अन्न जे० सी०-182559 इम्ल्यू०)---10 नवम्बर 1988।@

हवलदार गोपाल सिंह रावत (सं० 1538347 पी० अन्न जे० सी०-182560 एन०)---12 नवम्बर 1988।@

हवलदार रामस्वरूप (सं० 1537982 एन अन्न जे० सी०-182561 एन०)---14 नवम्बर 1988।@

हवलदार करनैल सिंह (सं० 1565729 एम० अन्न जे० सी०-182562 इम्ल्यू०)---15 नवम्बर 1988।@

हवलदार पण्डित सागरे (सं० 1565329 इम्ल्यू० अन्न जे० सी०-182563 आई०)---15 नवम्बर, 1988।@

हवलदार काले दशरथ गोबिन्द (सं० 1542549 एन अन्न जे० सी०-182564 एफ०)---15 नवम्बर 1988।@

हवलदार गुरधरत मिह (सं० 1538747 एफ० अन्न जे० सी०-182565 के)---15 नवम्बर 1988।@

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1988 से दी जायेगी)।

नियमित सेना

कोर आफ इंजीनियर्स

एम० ई० एस० मिलिट्री कौडर

(नायब सूबेदार के रैंक में)

हवलदार सोमा राम (सं० 1531240 एक्स० अन्न जे० सी०-182525 एम०)---24 जनवरी, 1989।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जून 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार कृष्णा राव कुलकर्णी (सं० 1361853 एम० अन्न जे० सी०-182526 एल०)---10 अगस्त 1988।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार किरपाल सिंह (सं० 1449917 एल० अन्न जे० सी०-182527 एन०)---05 दिसम्बर 1988।%

हवलदार लक्ष्मी चन्द (सं० 1451436 एक्स अन्न जे० सी०-182528 इम्ल्यू०)---14 दिसम्बर 1988।%

हवलदार केवला नंद कण्ठपाल (सं० 1450203 के अन्न जे० सी०-182529 आई०)---17 दिसम्बर 1988।%

हवलदार ए पोल राज (सं० 1363443 एल० अन्न जे० सी०-182530 एन०)---04 फरवरी, 1989।%

हवलदार ए पुल्लायह (सं० 1358779 एफ० अन्न जे० सी०-282531 इम्ल्यू०)---09 जनवरी, 1989।%

हवलदार बीर सिंह (सं० 1430421 एम० अन्न जे० सी०-182532 आई०)---27 दिसम्बर 1988।%

हवलदार देवी प्रमाद सिंह (सं० 1453452 एल अन्न जे० सी०-182533 एफ०)---20 दिसम्बर 1988।%

हवलदार प्रकाश (सं० 1456180 के अब जे० सी०-182534 के)—
19 दिसम्बर 1988 1%

हवलदार कन्हू धरम माहू (सं० 1457183 के अब जे० सी०-
182535 एम०)—28 दिसम्बर 1988 1%

हवलदार गुरमुख सिंह भंगत (सं० 1458320 के अब जे० सी०-
182536 पी०)—12 जनवरी, 1989 1%

हवलदार गुणिल्ली जगाधीश्वरा राव (सं० 1361691 एम० अब जे०
सी०-182537 एम०)—01 दिसम्बर 1988 1%

हवलदार मनीषासन आर० (सं० 1362714 एम० अब जे० सी०
182538 ए०)—18 जनवरी, 1989 1%

हवलदार सी० रामाशित्तम (सं० 1362327 एम० अब जे० सी०
182539 ए०)—20 दिसम्बर 1988 1%

हवलदार बाल्मिडी मुन्दरा राव (सं० 1363407 ए० अब जे० सी०
182540 एम०)—19 जनवरी, 1989 1%

हवलदार बी० धीरवेंकटा शामी (सं० 1361389 पी० अब जे० सी०
182541 ए०)—21 जनवरी, 1989 1%

हवलदार रामप्पा (सं० 1364944 एम० अब जे० सी०-182542
ए०)—14 दिसम्बर 1988 1%

हवलदार मुहम्मद अली सी० एम० (सं० 1365066 आई
ए० जे० सी०-182543 एम०)—14 फरवरी, 1989 1%

हवलदार थिप्पीसेट्टी रंगा सुबैय्या (सं० 1365290 एम० अब जे०
सी०-182544 एम०)—10 दिसम्बर, 1988 1%

हवलदार करनैल सिंह (सं० 1541412 पी० अब जे० सी०-182545
इ०)—19 दिसम्बर 1988 1%

हवलदार ई० एम० राजू (सं० 1364691 एम० अब जे० सी०-
182546 आई०)—16 दिसम्बर 1988 1%

हवलदार विलियम मार्क पारट्राहो (सं० 1364961 एम० अब जे० सी०
182547 एम०)—14 दिसम्बर 1988 1%

हवलदार के० आर० कानन (सं० 1365028 ए० अब जे० सी०
182548 के०)—22 दिसम्बर 1988 1%

हवलदार मोहनन पिन्ने आर० (सं० 1365248 एम० अब जे० सी०
182549 एम०)—20 दिसम्बर 1988 1%

हवलदार एम० युषा राज (सं० 1365462 पी० अब जे० सी०-
182550 एम०)—13 जनवरी, 1989 1%

हवलदार पोशुसामी मामीनाथन (सं० 1352053 एम० अब जे० सी०
182551 के०)—25 जनवरी, 1989 1%

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना
उपेक्षा 11 नवम्बर 1988 से दी जायेगी)।

नायक सूबेदार के रैंक में

हवलदार चन्दन सिंह (सं० 1441488 ए० अब जे० सी०-182443
ए०)—16 जुलाई, 1988 1*

हवलदार राम सिंह (सं० 1448687 इ० अब जे० सी०-
182444 ए०)—16 जुलाई, 1988 1*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना
उपेक्षा 01 जुलाई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार शोश राम (सं० 1453198 पी० अब जे० सी०-182445
ए०)—10 दिसम्बर 1988 1%

हवलदार जयनल सिंह (सं० 1402547 ए० अब जे० सी०-182446
ए०)—11 अगस्त, 1988 1%

हवलदार राम निवास शर्मा (सं० 1451613 एम० अब जे० सी०
182447 इ०)—16 दिसम्बर, 1988 1%

हवलदार गुलाब चन्द (सं० 1402379 एम० अब जे० सी०-
182448 आई०)—17 अगस्त, 1988 1%

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना
उपेक्षा 01 अगस्त 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार मामू सिंह (सं० 1402399 ए० अब जे० सी०-182449
ए०)—01 दिसम्बर 1988 1X

हवलदार मुखवन्त सिंह (सं० 1402555 के अब जे० सी०-182450
इ०)—01 दिसम्बर, 1988 1X

हवलदार इब्राल सिंह (सं० 1402598 आई अब जे० सी०-182451
आई०)—01 दिसम्बर, 1988 1X

हवलदार हरपाल सिंह (सं० 1401706 ए० अब जे० सी०-
182452 ए०)—29 अक्टूबर, 1988 1X

X(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना उपेक्षा
01 दिसम्बर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार कुंवर सिंह राबल (सं० 1447326 ए० अब जे० सी०-182453
इ०)—24 अक्टूबर 1988 1*

हवलदार मरुपिन्दर सिंह (सं० 1448364 के० अब जे० सी०-182454
एम०)—30 नवम्बर 1988 1@

हवलदार प्रेम प्रसाद मून्डू (सं० 1450382 पी० अब जे० सी०-
182455 पी०)—24 अक्टूबर 1988 1@

हवलदार गियान सिंह (सं० 1450385 ए० अब जे० सी०-
182456 एम०)—24 अक्टूबर 1988 1@

हवलदार चन्देवर प्रसाद सिंह (सं० 1450657 इ० अब जे०
सी०-182457 ए०)—24 अक्टूबर 1988 1@

हवलदार राम बिलास सिंह (सं० 1450686 एम० अब जे० सी०-
182458 ए०)—21 अक्टूबर 1988 1@

हवलदार ग्याम बाबू सिंह (सं० 1450858 इ० अब जे० सी०
182459 ए०)—27 अक्टूबर 1988 1@

हवलदार विशाराम सिंह (सं० 1451029 पी० अब जे० सी०-182460
ए०)—15 नवम्बर, 1988 1@

हवलदार जगवीण चन्वर (सं० 1450877 ए० अब जे० सी०-
182461 ए०)—19 अक्टूबर 1988 1@

हवलदार हरबन्स सिंह (सं० 1451457 ए० अब जे० सी०-
182462 ए०)—19 दिसम्बर, 1988 1@

हवलदार ब्रिज मोहन (सं० 1401612 ए० अब जे० सी०-
182463 ए०)—19 अक्टूबर, 1988 1@

हवलदार जमुना राम (सं० 1496853 इ० अब जे० सी०-
182464 इ०)—24 अक्टूबर 1988 1@

हवलदार कुलधन्त सिंह (सं० 1447095 ए० अब जे० सी०-182465
आई०)—24 अक्टूबर, 1988 1@

हवलदार खेम बहादुर गुरंग (सं० 1403699 आई० अब जे० सी०
182466 ए०)—25 अक्टूबर 1988 1@

हवलदार मुलखान सिंह (सं० 1450066 पी० अब जे० सी०-182467
के०)—04 नवम्बर, 1988 1@

हवलदार देओ शंकर मुन्ना (सं० 1402455 एम० अब जे० सी०
182468 एम०)—22 अक्टूबर, 1988 1@

हवलदार राम दयाल सिंह (सं० 1450443 ए० अब जे० सी०
182469 पी०)—15 नवम्बर 1988 1@

हवलदार शायल सिंह (सं० 1402695 इ० अब जे० सी०-
182470 के०)—24 अक्टूबर 1988 ; @

हवलदार फेरिक पोल टोपी (सं० 1450707 एम० अब जे० सी०
182471 एम०)—22 अक्टूबर 1988 1@

हवलदार नाथू राम (सं० 1449958 पी० अब जे० सी०-182472 पी०)—31 अक्टूबर 1988।@

हवलदार गुरदियाल सिंह (सं० 1450700 एन० अब जे० सी०-182473 एफ०)—31 अक्टूबर 1988।@

हवलदार नरेन्द्र कुमार सिंह (सं० 1450748 एफ० अब जे० सी०-182474 ए०)—19 अक्टूबर 1988।@

हवलदार जगदीश सिंह (सं० 1451188 एम० अब जे० सी०-182475 एच०)—24 अक्टूबर 1988।@

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार सतीश मोहन कुकुरेनी (सं० 1451350 वार्ड० अब जे० सी०-182476 एल०)—15 दिसम्बर, 1988।£

हवलदार श्री भगवान सिंह (सं० 1451358 एल० अब जे० सी०-182477 एन०)—06 दिसम्बर 1988।£

हवलदार नवीन चन्द्रा (सं० 1451474 एन० अब जे० सी०-182478 डब्ल्यू०)—12 दिसम्बर, 1988।£

हवलदार अमर सिंह (सं० 1450983 ए० अब जे० सी०-182479 व०, ई०)—13 दिसम्बर 1988।£

हवलदार नरिन्दर सिंह (सं० 1451102 एच० अब जे० सी०-182480 एन०)—14 दिसम्बर 1988।£

हवलदार उदय प्रताप सिंह (सं० 1451161 पी० अब जे० सी०-182481 डब्ल्यू०)—07 दिसम्बर 1988।£

हवलदार उमा शंकर शर्मा (सं० 1451594 एम० अब जे० सी०-182482 वार्ड०)—06 दिसम्बर 1988।£

हवलदार शिव राज सिंह (सं० 1452152 ए० अब जे० सी०-182483 एफ०)—13 दिसम्बर 1988।£

हवलदार करनैल सिंह (सं० 1447945 वार्ड० अब जे० सी०-182484 के०)—12 दिसम्बर 1988।£

हवलदार मंगल दाम (सं० 1448636 एच० अब जे० सी०-182485 एम०)—03 दिसम्बर 1988।£

हवलदार प्रताप नारायण सिंह (सं० 1449481 एन० अब जे० सी०-182476 पी०)—05 दिसम्बर, 1988।£

हवलदार प्रेम बहादुर गुरंग (सं० 1402431 पी० अब जे० सी०-182487 एफ०)—05 दिसम्बर, 1988।£

हवलदार बंस नारायण राय (सं० 1450165 वार्ड० अब जे० सी०-182488 ए०)—06 दिसम्बर, 1988।£

हवलदार निर्मल सिंह (सं० 1451150 एच० अब जे० सी०-182489 एच०)—16 दिसम्बर 1988।£

हवलदार बुद्धी सिंह (सं० 1451173 के० अब जे० सी०-182490 एफ०)—16 दिसम्बर, 1988।£

हवलदार किरण सिंह (सं० 1451220 एल० अब जे० सी०-182491 ए०)—12 दिसम्बर 1988।£

£(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार मथुरा वाम जोशी (सं० 1402751 के० अब जे० सी०-182492 एच०)—17 दिसम्बर 1988।£

हवलदार आनन्द मनी (सं० 1402696 वार्ड० अब जे० सी०-182493 एल०)—17 दिसम्बर 1988।£

हवलदार मलखान सिंह (सं० 1451830 एच० अब जे० सी०-182494 एन०)—17 दिसम्बर, 1988।£

हवलदार उदय नारायण कुंभे (सं० 1451844 एच० अब जे० सी०-182495 डब्ल्यू०)—19 दिसम्बर 1988।£

हवलदार खजान सिंह (सं० 1454663 के० अब जे० सी०-182496 वार्ड०)—26 दिसम्बर 1988।£

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार कलक के रैंक में

हवलदार कलक मारगु राम (सं० 1445229 पी० अब जे० सी०-182497 एफ०)—13 दिसम्बर 1988।**

हवलदार जगन सिंह रंतेना (सं० 1445779 एफ० अब जे० सी०-182498 के०)—28 दिसम्बर 1988।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार कलक प्रेम सिंह भाटिया (सं० 1445238 डब्ल्यू० अब जे० सी०-182499 एन०)—03 अक्टूबर, 1988।***

हवलदार कलक दरवाग सिंह (सं० 1449006 पी० अब जे० सी०-182500 डब्ल्यू०)—05 दिसम्बर 1988।***

हवलदार कलक मन्य पाल सिंह (सं० 1448828 ए० अब जे० सी०-182501 वार्ड०)—25 अक्टूबर 1988।***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार कलक रमेश कुमार (सं० 1449298 एच० अब जे० सी०-182502 एफ०), 05 नवम्बर 1988।%/%

हवलदार कलक नरिन्दर सिंह (सं० 1446348 एफ० अब जे० सी०-182503 के०), 10 दिसम्बर 1988।%/%

हवलदार कलक अजय कुमार बशिष्ठ (सं० 1445592 एल० अब जे० सी०-182504 एम०), 09 दिसम्बर 1988।%/%

हवलदार कलक गणेश प्रसाद सिंह (सं० 1445761 एफ० अब जे० सी०-182505 पी०), 14 दिसम्बर 1988।%/%

हवलदार कलक राम रक्षा पाल (सं० 1449233 पी० अब जे० सी०-182506 एफ०), 14 अक्टूबर 1988।%/%

%/% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार कलक नगेन्द्रा प्रसाद कुकुरेनी (सं० 1445855 वार्ड० अब जे० सी०-182507 ए०), 01 अक्टूबर 1988।@@

हवलदार कलक सिमिर कुमार दत्ता (सं० 1445942 एम० अब जे० सी०-182508 एच०), 10 अक्टूबर 1988।@@

हवलदार कलक तारकेश्वर प्रसाद सिंह (सं० 1446103 एफ० अब जे० सी०-182509 एल०), 03 अक्टूबर 1988।@@

हवलदार कलक त्रिज मोहन जख्खान (सं० 1445937 एफ० अब जे० सी०-182510 ए०), 01 अक्टूबर 1988।@@

हवलदार कलक परशु राम सिंह (सं० 1446104 के० अब जे० सी०-182511 एच०), 01 अक्टूबर 1988।@@

@@ (नायब सूबेदार कलक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार कलक विवान सिंह मेहता (सं० 1446317 एफ० अब जे० सी०-182512 एल०), 01 नवम्बर 1988।££

हवलदार कलक हरदेव सिंह (सं० 1448722 एल० अब जे० सी०-182513 एन०), 01 नवम्बर 1988।££

हवलदार कलक सुरेश चन्द्र शर्मा (सं० 1448843 पी० अब जे० सी०-182514 डब्ल्यू०), 01 नवम्बर 1988।££

££ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार कलक राम कुमार यादव (सं० 1449586 पी० अत्र जे० सी० 182515 आई०), 01 दिसम्बर 1988।&&

हवलदार करमजीत सिंह (सं० 1459946 एन० अत्र जे० सी०-182516 एफ०), 01 दिसम्बर 1988।&&

हवलदार कलक उत्तम सिंह (सं० 1449277 एम० अत्र जे० सी०-182517 के०), 01 दिसम्बर 1988।&&

हवलदार कलक जयदेव सिंह (सं० 1449293 के० अत्र जे० सी०-182518 एम०), 07 दिसम्बर 1988।&&

&&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार कलक स्टोर के रैंक में

हवलदार कलक (एन०) मनवर सिंह मियान (सं० 1446944 के० अत्र जे० सी०-182519 पी०), 28 सितम्बर 1988।***

हवलदार कलक (एम०) भागी रथ शर्मा (सं० 1447136 आई० अत्र जे० सी०-182520 के०), 19 अक्टूबर 1988।***

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1988 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सर्वे जागीर सिंह (सं० 148890 एम० अत्र जे० सी०-182521 एम०), 11 अक्टूबर 1988। " " "

" " " (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार सर्वे कुरियन के० जे० (सं० 1448741 आई० अत्र जे० सी०-182522 पी०), 03 दिसम्बर 1988।%%%

%%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार सर्वे विपिन बिहारी सिंह (सं० 1448790 एफ० अत्र जे० सी०-182523 एफ०), 15 नवम्बर 1988।@@@

@@@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार सर्वे फुरवा तेशरिंग लामा (सं० 1446332 एम० अत्र जे० सी०-182524 ए०), 13 दिसम्बर 1988।£££

£££ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी)।

हरिशा चन्द्र, अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं० 1396, दिनांक 25 सितम्बर, 1989--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

कोर आफ सिग्नल्स

सूबेदार मेजर (एफ० आफ ए०) के रैंक में

सूबेदार सुरेन्द्र पास (जे० सी०-76031 ए०), 01 जून 1989।

सूबेदार अमर नाथ शर्मा (जे० सी०-76040 पी०), 01 जुलाई 1989।

सूबेदार समीर कुमार मयती (जे० सी०-77422 ए०), 01 अगस्त 1989।

सूबेदार मेजर (कलक जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार कैलाश चन्द्र शर्मा (जे० सी०-85502 ए०), 01 जून 1989।

सूबेदार वशीम लाल (जे० सी०-85503 ए०), 01 जून 1989।

3-384 GI/8

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार दिवान चम्ब (जे० सी०-94900 ए०), 01 जून 1989।

सूबेदार दिवान सिंह (जे० सी०-94905 आई०), 01 जून 1989।

सूबेदार शाबाजी भोयले (जे० सी०-93454 ए०), 01 जून 1989।

टी० बी० नायर, डीस्क अधिकारी

सं० 1397, दिनांक 1 सितम्बर 1989--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना विभाग

रिमाउन्ट बेटरिस्ट्री कोर

रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार (ड्रेमर) किशन सिंह (आर० वी०-7360 आई०), 01 जून 1989।

रिसालदार (ड्रेमर) सुधीर चन्द्र डे (आर० वी०-7362 के०), 01 अगस्त 1989।

रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार (कलक) जय शंकर पांडे (आर० वी०-7450 ए०), 01 जून 1989।

नायब रिसालदार (ड्रेमर) प्रभु नाथ यादव (आर० वी०-7471 डब्ल्यू०), 01 अगस्त 1989।

नायब रिसालदार (बी० ओ०) प्रभु नाथ प्रसाद (आर० वी०-7475 ए०), 01 अगस्त 1989।

नायब रिसालदार (ड्रेमर) भोम प्रकाश (आर० वी०-7479 ए०), 01 अगस्त 1989।

अनिल कुमार, अवर सचिव

राष्ट्रीय कैबेट कोर

सं० 1398, दिनांक 8 सितम्बर, 1989--राष्ट्रपति निम्नलिखित महिला अंतरालिक अफसरों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से राष्ट्रीय कैबेट कोर में सेवा मुक्त करते हैं। उनके नाम के आगे कोष्ठकों में दी गई अवधि राष्ट्रीय कैबेट कोर में बरिष्ठता, पदोन्नति अथवा किसी अन्य लाभ के प्रयोग के लिए नहीं गिनी जाएगी :--

बालिका प्रभाग (कनिष्ठ स्कंध)

ममिनाडू

द्वितीय अफसर पी० एम० रमणी चामुंडेस्वरी (एन० सी० सी० ज०जी० डी०-11121), 01-7-89 (01-7-89 से 17-8-89 तक)।

तृतीय अफसर डी० सुगुना (एन० सी० सी० ज०जी० डी०-11146), 01-7-89 (01-7-89 से 17-8-89 तक)।

बी० बी० महापात्र, उप महानिदेशक (पी० ए० ए०)

सेना शाखा

सं० 1399, दिनांक 20 सितम्बर, 1989—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को, 7 वर्ष की आर्द्ध शर्त समाप्त करने पर प्रादेशिक सेना सेवा से सेवा विमुक्त करते हैं :—

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टी व्हाइस पाल वर्मा (टी० ए०-41668) इंजीनियर्स, 13 अप्रैल 1987 (अपराह्न) ।

लेफ्टि० बाल कृष्णा (टी० ए०-41591) इंजीनियर्स, 18 अप्रैल 1985 (अपराह्न) ।

लेफ्टि० सुरेन्द्र कुमार (टी० ए०-41625) इंजीनियर्स, 12 जून 1986 (अपराह्न) ।

एच० डी० सिन्हा, अवर सचिव

रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

सं० 1400, दिनांक 20 सितम्बर, 1989—सेवा की बढ़ायी गई अवधि के पूरा होने पर बैमानिकीय विकास स्थापना, बंगलौर के वैज्ञानिक (सी) श्री एम० पी० नागभूषण, 31-5-1989 (अपराह्न) से सेवा-निवृत्त हुए और 01-6-1989 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित किए गए ।

नरसिंह दास, सहायक निदेशक, कामिक ।

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टी० कर्नल (टी० एम०) पी० के० आर० नास्त्रियर (टी० ए०-40820) इन्फैन्ट्री, 31 जुलाई 1988 (अपराह्न) ।

मेजर एम० एम० अस्थाना (टी० ए०-41141) इन्फैन्ट्री, 31 जुलाई 1988 (अपराह्न) ।

लेफ्टी० कर्नल (टी० एम०) पी० आर० जी० नायर (टी० ए०-40896) इन्फैन्ट्री, 30 नवम्बर 1988 (अपराह्न) ।

मेजर के० एम० गोस्वामी (टी० ए०-41441) इन्फैन्ट्री, 30 सितम्बर 1988 (अपराह्न) ।

लेफ्टी० कर्नल (टी० एम०) के० एस० नेगी (टी० ए०-40974) इन्फैन्ट्री, 31 जुलाई 1988 (अपराह्न) ।

सं० 1401, दिनांक 25 सितम्बर 1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को अनिवार्य सेवा निवृत्ति की प्राप्ति करने पर बल सेना से सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

मेजर एस० एस० आर० अरोकीपति (टी० ए०-41455) इन्फैन्ट्री, 30 जून 1987 (अपराह्न) ।

एच० डी० सिन्हा, अवर सचिव

सेना विभाग
(सैनिक अभियंता सेवाएं)

सं० 1402, दिनांक 12 सितम्बर, 1989—निम्नलिखित अधिकारी, उनके नाम के सामने लिखी हुई तिथि से सेवा निवृत्त हुए :—

एम० ई० एस०/148007 श्री एस० राजाराम एस० ई० (स्थाई) सी० ई० (अस्थाई), 31 अगस्त 1989 (अपराह्न) ।

आर० आर० कौशल, अवर सचिव

(सेना शाखा)

शुद्धिपत्र

सं० 1403, दिनांक 26-7-89—भारत के राजपत्र में रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना में 'नियमित सेना स्थाई आयोग' शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 29 अक्टूबर 1988 को प्रकाशित हुआ था :—

के लिए:—तरनवीर सिंह चड्ढा (आई० सी०-44061 एकस०), सिगनल्स ।

पढ़ा जाए:—तरनवीर सिंह (आई० सी०-44061 एकस०), सिगनल्स ।

कृपया 23 मई 1981 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना नं० 1108 दिनांक 23 अप्रैल 1981 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :—

अंतर्गत शीर्षक 'नियमित सेना स्थायी आयोग'

आई० सी०-39056 एकस के स्थान पर ।

आई० सी०-39056 एच पढ़िये ।

आई० सी० गुप्ता, ले० कर्मल
ए० एम० एस० 8वीं

सेना सेवा कोर
(सप्लाई)
शुद्धि पत्र

सं० 1404, दिनांक 18 सितम्बर, 1989—रक्षा मंत्रालय का राजपत्र 2022 दिनांक 29 जुलाई 1986 जो कि भारतीय राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 1986 को पन्ना नं० 1586 पर प्रकाशित हुआ । उसके शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक सेना सेवा कोर (सप्लाई) लघुशीर्षक पक्के सूबेदार मेजर लिपिक (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में निम्न शुद्धि की जाती है :—

के लिए:—वे०/ए० सूबेदार मेजर रामचन्द्र मलिक (जे० सी०-59707 पी०), 01 मई 1986 ।

पढ़ा जाए:—वे०/ए० सूबेदार मेजर रामचन्द्र मलिक (जे० सी०-59707 पी०), 01 जून 1986 ।

सं०—दिनांक—रक्षा मंत्रालय का राजपत्र 650 दिनांक 4 मार्च 1987 जो कि भारतीय राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल 1987 को पन्ना नम्बर 465 पर प्रकाशित हुआ । उसके शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक (सप्लाई) लघुशीर्षक पक्के सूबेदार मेजर लिपिक (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में निम्न शुद्धि की जाती है :—

के लिए:—वे०/ए० सूबेदार मेजर करुणाकरन नायर एम० आर० (जे० सी०-59659 ए०), 01 अगस्त 1986 ।

पढ़ा जाए:—वे०/ए० सूबेदार मेजर करुणाकरन नायर एम० आर० (जे० सी०-59659 ए०), 01 सितम्बर 1985 ।

के लिए:—वे०/ए० सूबेदार मेजर गौरीशंकर पान्डे (जे० सी०-59445 के०), 01 अगस्त 1986 ।

पढ़ा जाए:—वे०/ए० सूबेदार मेजर गौरी शंकर पान्डे (जे० सी०-59445 के०), 01 सितम्बर 1985 ।

सं०—दिनांक—रक्षा मंत्रालय का राजपत्र 508 दिनांक 16 मार्च 1988 जो कि भारतीय राजपत्र में दिनांक 16 अप्रैल 1988 को पन्ना नम्बर 569 पर प्रकाशित हुआ । उसके शीर्षक

नियमित सेना उप शीर्षक सेना सेवा कोर (सप्लाई) लघु शीर्षक पत्रके सूचेवार मेजर लिपिक (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में निम्न शुद्धि की जाती है :—

के लिए पे०/ए० सूचेवार मेजर बिमलेश चन्द्रा वत्सा (जे० सी०—60106 डब्ल्यू०), 19 जुलाई 1987।

पढ़ा जाए पे०/ए० सूचेवार मेजर बिमलेश चन्द्रा वत्सा (जे० सी०—60106 डब्ल्यू०), 01 अप्रैल 1984।

अनिल कुमार अबर तन्त्रिष

(वायु शाखा)

सं० 1405, दिनांक 25 सितम्बर 1989—राष्ट्रपति निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

स्वाइन लीडर की विंगकमांडर (समय मान) के मूल रैंक में उड़ान शाखा

एस० सी० मलिक (11625) उड़ान (नेवी), 18 मई, 1989।

विनोद कुमार (11628) उड़ान (नेवी), 18 मई 1989।

एस० अहमद (11627) उड़ान (नेवी), 18 मई 1989।

बीमा० इंजी० (इंजी०) शाखा

एन० जे० मैथ्यू (11906), 30 मई 1989।

जी० पी० राय (11907), 30 मई 1989।

पी० के० दास (11902), 30 मई 1989।

ओ० एम० सोंधी (11911), 30 मई 1989।

प्रशामन शाखा

विनोद कुमार (11602), 18 मई 1989।

आर० नारायण (11609), 18 मई 1989।

अविनाश चन्द्र (11611), 18 मई 1989।

आर० पंडित, मध्यक निर्देशक का (अफसर)—2(ए)

(नेवी ब्रांच)

नौसेना मुख्यालय

सं० 1406, दिनांक 5 सितम्बर 1989—श्री विलदार सिंह, आगुलिफिक ग्रेड "ग" दिनांक 1 सितम्बर 89 (पूर्वाह्न) से 31-12-89 अथवा चयन सूची से उम्मीदवारों की उपलब्धता तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए सशस्त्र सेना मुख्यालय की आगुलिफिक सेवा में अस्थायी आधार पर आगुलिफिक ग्रेड (ख) (एस० पी० ए०) नियुक्त किया जाता है।

टी० एस० स्याल, उप मुख्य प्रशामन अधिकारी

(नौसेना शाखा)

सं० 1407, दिनांक 2 जून 1989—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय नौसेना

स्थायी कमीशन

विशेष ड्यूटी सूची

पदोन्नति/वरिष्ठता की तारीख

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० पी० आर०) के रैंक में

पांडुरंग बरोटे (81586 आई०), 01 अक्टूबर 88/1 अक्टूबर 1987।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० सी०) के रैंक में

उमेश महाराज (82007 बी०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 1987।

रमेश पाल (82008 एफ०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 1987।

बीरबल सिंह (82009 एच०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 1987।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० पी०) के रैंक में

नारायण प्रसाद मिश्रा (83210 एन०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 1987।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० आर० ई० जी०) के रैंक में

चन्द्र प्रकाश (83964 ए०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 87।

सतविन्दर सिंह (83965 बी०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 87।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (ए० डी० पी० टी०) के रैंक में

राजेश्वर कुमार ठाकुर (84316 ए०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 87।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० ए० बी०) के रैंक में

गुरप्रितपाल सिंह बाजवा (84613 ए०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 87।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० ए०) के रैंक में

राम निवास (88595 ए०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 87।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० डब्ल्यू०) के रैंक में

कोम्मना पट्टा श्री रामैया (89101 ए०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 1987।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० सी० ए० टी०) के रैंक में

मार्क्यू मेन् (89517 आई०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 1987।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० ए० ई०) के रैंक में

गुरधन सिंह (86050 टी०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 1987।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० पी०) के रैंक में

नखबीर सिंह (86895 ए०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 87।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० ए० ए०) के रैंक में

श्रीधर गंगाप्रसाद (88117 आर०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 87।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० ए० आर०) के रैंक में

दीपक कुमार डे (88323 ए०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 87।

कार्यकारी सब ले० से सब ले० (एस० डी० ए०) के रैंक में

अविनाश चन्द्रा (89761 ए०), 01 अक्टूबर 88/01 अक्टूबर 87।

नौसेना शाखा

स्थायी कमीशन

कार्यकारी सब ले० से सब ले० के रैंक में

पदोन्नति/वरिष्ठता की तारीख

कुमार अशोक (70289-आई०), 18 अगस्त 87/18 अगस्त 86।

कालबागुंडा नागा राजशेखर (70290-जेड०), 18 अगस्त 87/18 अगस्त 86।

अभयकर आनन्द अरविन्द (70296 ए०), 16 फरवरी 88/16 फरवरी 87।

शर्मा अशोक कुमार (70304-एफ०), 16 फरवरी 88/16 फरवरी 87।
रवि कुमार बोधा (70307-एन०), 17 अगस्त 88/17 अगस्त 87।
चक्रवर्ती संवीप (70309-टी०), 17 अगस्त 88/17 अगस्त 87।
जैन अशनीश (70310-इड्यू०), 17 अगस्त 88/17 अगस्त 87।
नूर खुर्रम शाहजाद (70311-वाई०), 17 अगस्त 88/17 अगस्त 87।
श्रीधर एस० आर० (70312-जैड०), 17 अगस्त 88/17 अगस्त 87।

शर्मा पवन कुमार (41157 एन०), 18 अगस्त 87/18 अगस्त 1986।
नायर बालकृष्णन गोपालकृष्णन (41234 एन०), 17 अगस्त 88/17 अगस्त
87 जोस एफ० वेल्सेस (41235 आर०), मेनन निर्मल एम० (41236 टी०),
अकिलंदन रामचन्द्रन (41238 वाई०), चक्रवर्ती रवि कुमार (41252 बी०),
वीषान प्रवीण कुमार (41253 एफ०), नन्देबला रघु राम (41255 के०),
प्रेमचन्द्र एस० (41256 एन०), मुन्दरेमन जी० एस० (41257 आर०),
श्यामथ पनयाला (41258 टी०), 17 अगस्त 88/17 अगस्त 87।

बालिम्बे भास्कर (41259 इड्यू०), 23 अगस्त 88/23 अगस्त 1987।

श्रीनवासा राघवन भाष्यम् (41262 ए०), 10 सितम्बर 88/10 सितम्बर
1987।

राम चन्द्र, कार्मिक उपनिदेशक
(जे० ए० ए० एड आर०)

भाग-क खंड-1

नौसेना शाखा

नौसेना मूख्यालय

सं० 1408, दिनांक 12 सितम्बर 1989 --अधिषिक्षिता की आयु
प्राप्त कर लेने पर श्री भोला वल नगी प्राशुसिपिक ग्रेड "अ" (एम० पी०
ए०) दिनांक 31 अगस्त 1989 (पूर्वाह्न) से सेवा निवृत्त हुए और 01
सितम्बर 1989 (पूर्वाह्न) में उन्हें पेंशन स्थापना को स्थानांतरित कर
दिया गया।

टी० एन० स्याल, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 1409, दिनांक 28 फरवरी 1989--निम्नलिखित अफसर, नौसेना
सेवा से उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से सेवानिवृत्त हो गए।

भारतीय नौसेना

(स्थायी कमीशन)

कार्यकारी शाखा

बाइस एडमिरल एस० एम० गडीहोक (00126 के०), 30 जून 1988
(अपराह्न)।

रियर एडमिरल ए० आर्बिटो (00176 जैड), 31 जुलाई 1988
(अपराह्न)।

रियर एडमिरल एम० एम० चोपड़ा (60042 एच०), 30 जून 1988
(अपराह्न)।

कमोडोर वी० जी० होनावर (60043 के०), 31 मई 1988 (अपराह्न)

कमोडोर जे० एस० बिक (60052 एफ०), 31 अगस्त 1988 (अपराह्न)

कमोडोर एस० डी० शर्मा (60045 आर०), 30 जून 1988 (अपराह्न)।

कमोडोर जे० केस्टलिनो (80082 जैड), 30 जून 1988 (अपराह्न)।

कमोडोर के० के० गर्ग (00267 एफ०), 31 अगस्त 1988 (अपराह्न)।

कमांडर (टी० एस०) एम० एस० डोगरा (00479 एन०), 31 अगस्त
1988 (अपराह्न)।

कमांडर वाई० एल० कुलकर्णी (00627 वाई०), 30 सितम्बर 1988
(अपराह्न)।

इलेक्ट्रिकल शाखा

कमोडोर जी० पी० कोहली (50046 आर०), 31 अक्टूबर 1988
(अपराह्न)।

कमोडोर (टी० एस०) वी० कुमार (50068 आर०), 31 जुलाई 1988
(अपराह्न)।

शिक्षा शाखा

कमोडोर के० शंकरनारायणन (70050 बी०), 31 मई 1988 (अपराह्न)
कमांडर एम० एल० मक्कड़ (70059 जैड०), 30 नवम्बर 1988
(अपराह्न)।

कमांडर एस० पी० शर्मा (70062 एफ०), 30 नवम्बर 1988 (अपराह्न)।

कमांडर पी० इड्यू० गाडबोले (70060 ए०), 31 अगस्त 1988
(अपराह्न)।

वी० के० ठाकुर, उप निदेशक कार्मिक
(ए० ए० एड आर०)

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर, 1989

सं० ए०-22012/2/89-स्था०-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय संचालय सेवा
के स्थायी ग्रेड-1 अधिकारी श्री एम० एल० कपूर को दिनांक 27 जुलाई,
1989 से 60 दिन की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक अथवा
श्री संजय बहल, निदेशक के विदेश से परामर्शदात्री तैनाती से वापस लौटने
तक, इनमें से जो भी पहले हो उस तक के लिए रक्षा मंत्रालय के वित्त
प्रभाग में तबय आधार पर उप वित्तीय सलाहकार नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र मोहन, सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 1989

सं० ए०-19014/77-स्था०-1--राष्ट्रपति, भारतीय डाक सेवा के
अधिकारी श्री कर्ण स्याल की रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में उप वित्तीय
सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को उनके बच्चे की शिक्षा
के कारण वर्तमान शर्तों पर 16-12-1989 के बाद 31-5-1990 तक
बढ़ाते हैं।

राजेन्द्र मोहन,
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 14th October 1989

No. 1381, dated 6th September 1989.—The President is pleased to appoint Ms. R. Shakuntala, IRS (C&CE), on transfer from the Department of Revenue, Ministry of Finance, as Under Secretary in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of the 6th September, 1989.

The President is pleased to appoint Shri Rajeev Lochan, ISS, on transfer from the Central Bureau of Investigation, Ministry of Home Affairs, as Under Secretary, Ministry of Defence, with effect from the forenoon of the 8th September, 1989.

G. B. WADAWADIGI, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 1382, dated 25th September, 1989.—The President is pleased to make the following appointment:—

DTE, GENERAL RESETTLEMENT

Shri A. N. Dubey is appointed as Ty. Deputy Director (Agriculture) Group 'A' (Gazetted) wef 06-09-89 (FN) on the basis of the recommendations of the UPSC in the pay scale of Rs. 3700-125-4700-150-5000.

Shri Dubey will be on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority.

Shri K. S. Ray, Examiner is appointed as Supervisory Examiner (Gazetted—Gp B) wef 31-08-89 (FN) in an officiating capacity until further orders. Shri K. S. Ray will be on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority.

Shri Iqbal Shah Singh, Assistant is appointed as Officiating Assistant Civilian Staff Officer (Gp B—Gazetted) wef 06-9-89 (FN) in the AFHQ Civil Service, until further orders.

2. Shri Iqbal Shah Singh, ACSO will be on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority.

The following Assistants (Group 'B' Non-Gazetted) are appointed as officiating Assistant Civilian Staff Officers (Group 'B' Gazetted) in the AFHQ Civil Service with effect from the dates indicated against their names:—

1. I. S. Nanray—1-9-1989
2. Shri G. R. Taneja—1-9-1989.

T. S. SIAL, Dy. Chief Administrative Officer

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

D.R.D.S.

No. 1383, dated 5th September, 1989.—The President is pleased to make the following appointments:—

Having qualified in Limited Departmental Examination, 1988, hold in terms of Rule 8(a) of the DRDS Rule 1979, the undermentioned individuals to be Scientist 'B' on probation for a period of two years in the Establishment and with effect from the date shown against their names:—

- Smt. Rita Choudhary DMRI, Hyderabad 29-6-89 (FN).
 Shri Svsnd Rajeswar Rao DMRI, Hyderabad 29-6-89 (FN).
 Shri S. Rajendra Prasad DLRL, Hyderabad 29-6-89 (FN).
 Shri D. Satyanarayana DLRL, Hyderabad 29-6-89 (FN).
 Shri Ravi Bhaskara Rao ERDL Cell, Hyderabad 29-6-89 (FN).

M. L. ARORA, Asstt. Director (Pers)

(ARMY BRANCH)

(Military Engineer Services)

No. 1384, dated 26th June, 1989.—The President is pleased to appoint the following Executive Engineers as Superintending Engineers with effect from the dates shown against their names till further orders.

(a) MES/8464430 Shri J.L. Ramchandani, Permanent Superintendent Building/Road Grade I, Temporary Executive Engineer, 13 13 Jun 88 Forenoon.

(b) MES/235008 Shri Prabhandam Srikanth, Permanent Assistant Executive Engineer, Temporary Executive Engineer 15 Aug 88 Forenoon.

(c) MES/160004 Shri Vinayak Shrinivas Deshpande, Permanent Assistant Executive Engineer, Temporary Executive Engineer, 07 Jul 88 Forenoon.

(d) MES/450327 Shri Shardha Nand Dahiya, Permanent Assistant Executive Engineer, Temporary Executive Engineer, 17 Jun 88 Forenoon.

(e) MES/135003 Shri Karnanchi Lakshmana Rao, Permanent Assistant Executive Engineer, Temporary Executive Engineer 03 May 88 Forenoon.

(f) MES/300021 Shri Gian Chand Permanent Assistant Executive Engineer, Temporary Executive Engineer, 09 May 88 Forenoon.

(g) MES/446144 Shri Salig Ram Tyagi, Permanent Executive Engineer, 05 Nov 88 Forenoon.

The President is pleased to appoint MES/445038 Shri Devendra Gupta, Permanent Superintending Surveyor of Works as Chief Surveyor of Works with effect from 10 Aug 89 (Forenoon) till further order.

(The Corps of Electrical and Mechanical Engineers)

No. 1385, dated 14th August 1989.—The President is pleased to appointe Shri Rajesh Kumar as temporary Work shop Officer Group 'A' with effect from 10 Apr 89 (Forenoon) in the Corps of Electrical and Mechanical Engineering. He will be on probation for a period of two years.

R. R. KOSHAL, Under Secy.

No. 1386, dated 28th July, 1989.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY
REGIMENTAL COMMISSION

The undermentioned JCO is granted Regimental Commission in the rank of Lieut with effect from 10 Sep 88 under AI 18/84 in the Arms shown against his name:—

JC-113369Y Sub Gulzar Singh (RC-367A).

His seniority is below JC-102610A Sub Ashok Kumar (RC-366) and above the JC-112365 Sub Lal Chand (RC-369).

Y. C. GUPTA, Lt. Col. AMS 8B

NATIONAL CADET CORPS

No. 1387, dated 18th September, 1989.—The President is pleased to grant commission to the undermentioned:—

Senior Division (Naval Wing)

To be Acting Sub Lieut

Tamil Nadu

Ramalingam Kandasamy (NCCN/28016), 15th May 88.

B. B. MOHAPATRA, Dy. DG (P&F)

No. 1388, dated 20th September, 1989.—The President is pleased to confirm the under mentioned officer on completion of his probationary period :—

**TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION**

2/Lt Shashi Shekhar Prasad SINGH, TA-41868, Engrs, 30 Apr 1984.

2/Lt Vinod Kumar UTTAM, TA-41866, Engrs, 30 Apr 1984.

2/Lt Upendra Nath MALHOTRA, TA-41882, Engrs, 04 Jun 1984.

2/Lt Surendra Kumar SHARMA, TA-41885, Engrs, 04 Jun 1984.

2/Lt Manikya Bhushan CHAKRAVORTY, TA-41870, Engrs, 30 Apr 1984.

2/Lt Subhash Chandra AGARWAL, TA-41877, Engrs, 30 Apr 1984.

2/Lt Ram Deo PANDIT, TA-41879, Engrs, 30 Apr 1984.

2/Lt Krishna Shanker PARASHAR, TA-41883, Engrs, 04 Jun 1984.

2/Lt Ashokranjan TAPADAR, TA-41865, Engrs, 30 Apr 1984.

2/Lt Udit Kumar GURU, TA-41884, Engrs, 04 Jun 1984.

2/Lt Suresh Kumar BATRA, TA-41888, Engrs, 04 Jun 1984.

2/Lt S BALASANKARAN, TA-41871, Engrs, 30 Apr 1984.

2/Lt Mohan Lal GANDHI, TA-41889, Engrs, 04 Jun 1984.

2/Lt Surendra Kumar RANA, TA-41886, Engrs, 04 Jun 1984.

2/Lt Harvinder Singh ANAND, TA-41869, Engrs, 30 Apr 1984.

2/Lt Shailendra Kumar SINGH, TA-41880, Engrs, 30 Apr 1984.

H. D. SINHA, Under Secy.

RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 1389, dated 20th September, 1989.—The President is pleased to make the following promotions :—

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

The undermentioned Scientist 'D' of Armament Research & Development Establishment, Pune to be officiating Scientist 'E' in the same establishment with effect from the dates shown against their names :—

Shri P. N. Gadhiar—1-7-88 (F/N).

Shri A. V. Patanjpe—8-7-88 (F/N).

Shri S. V. Pingle—1-7-88 (F/N).

Shri P. K. Roy—1-7-88 (A/N).

Smt. ANU KHOSLA, Scientist 'B' of Scientific Analysis Group, Delhi to be officiating Scientist 'C' in the same Group with effect from 07-7-1988 (FN).

Shri R. K. Syal, Scientist 'D' of Explosive Research and Development Laboratory, Pune to be officiating Scientist 'E' in the same laboratory with effect from 1-7-88 (FN).

Shri P. P. Sabherwal, Senior Administrative Officer Grade II, Research & Development Headquarters, to be officiating Senior Administrative Officer Grade I in the same Headquarters with effect from 6-9-1989 (F/N).

NARSINGH DASS, Asstt. Dir. (Pers)

No. 1390, dated the 15th September, 1989.—The President is pleased to make the following Promotions :—/

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Majors to be Substantive Lt Cols (By Time-Scale)

Harbans Lal (IC 19237M), ASC., 16th Dec. 1988.

B. D. Joshi (IC 19241P), ASC., 16th Dec. 1988.

M.S. Sodhi (IC 19244H), INF., 16th Dec. 1988.

K.S. Gurung (IC 19247W), INF., 16th Dec. 1988.

B.S. Gurung (IC 19248Y), INF., 16th Dec. 1988.

K.S. Mehta (IC 19259L), INF., 16th Dec. 1988.

T.A. Srivastava (IC 19260A), INF., 16th Dec. 1988.

K.K. Misra (IC-19262L), AEC., 16th Dec. 1988.

S.V. Jasbinder (IC 19266F), ARTY., 16th Dec. 1988.

A.K. Razack (IC 19269P), ASC., 16th Dec. 1988.

J.R. Rajput (IC 19272P), INF., 16th Dec. 1988.

S.C. Sangwan (IC 19278W), ASC., 16th Dec. 1988.

S.N. Pandey (IC 19279Y), INF., 16th Dec. 1988.

H.S. Shekhawat (IC 19280N), ARTY., 16th Dec. 1988.

P.S. Bedi (IC 19282Y), INF., 16th Dec. 1988.

Satish Chander (IC 19283F), ARTY., 16th Dec. 1988.

S.D. Baluni (IC 19284K), ASC., 16th Dec. 1988.

K.L. Jaspal (IC 19286P), AOC., 16th Dec. 1988.

K.D. Jethani (IC 19291), ARTY., 16th Dec. 1988.

P.G. Roy (IC 19292H), INF., 16th Dec. 1988.

P.L. Monga (IC 19293L), INF., 16th Dec. 1988.

V.K. Bhatia (IC 19295W), INF., 16th Dec. 1988.

Dharam Singh (IC 19297F), INF., 16th Dec. 1988.

Akhand Pratap Singh (IC 19300W), INF., 16th Dec. 1988.

Prem Singh (IC 19298K), PNR CORPS., 16th Dec. 1988.

R.P. Bahaguna (IC 19301Y), ASC., 16th Dec. 1988.

S. Thā (IC 19303K), ASC., 16th Dec. 1988.

S.K. Sarine (IC 19313N), INF., 16th Dec. 1988.

Surinder Paul Singh (IC 19315Y), AOC., 16th Dec. 1988.

K.B. Jyal (IC 19321M), INF., 16th Dec. 1988.

R. Dwivedi (IC 19325H), AOC., 16th Dec. 1988.

D.S. Baya (IC 19327N), AEC., 16th Dec. 1988.

S.C. Upadhyay (IC 19374L), AEC., 16th Dec. 1988.

K.C. Simk (IC 26349P), ASC., 20th Dec. 1988.

S.S. Yadava (IC 26438M), ASC., 20th Dec. 1988.

R.I.D. Rujan (IC 26442W), INF., 20th Dec. 1988.

K.C. Sinha (IC 23915Y), SIGS., 21st Dec. 1988.

V. Nanda (IC 24060N), ENGRS., 21st Dec. 1988.

R.S. Thakur (IC 24097P), EME., 21st Dec. 1988.
 R.C. Sharma (IC 24102F), ENGRS., 21st Dec. 1988.
 D.K. Sharma (IC 24105H), SIGS., 21st Dec. 1988.
 V.K. Rana (IC 24112Y), EME., 21st Dec. 1988.
 P.C. Gautam (IC 24120X), SIGS., 21st Dec. 1988.
 R.C. Punj (IC 24122H), FME., 21st Dec. 1988.
 S.J. Mordecai (IC 24123L), SIGS., 21st Dec. 1988.
 V. Subramanian (IC 24127F), SIGS., 21st Dec. 1988.
 R.K. Gupta (IC 24136H), EME., 21st Dec. 1988.
 P.M. Rao (IC 24139W), EME., 21st Dec. 1988.
 G. Venkateswara Rao (IC 24140L), SIGS., 21st Dec. 1988.
 Y. Ramanathan Sastry (IC 24142W), EME., 21st Dec. 1988.
 A.N. Dharmarajan (IC 24147P), SIGS., 21st Dec. 1988.
 R. Narayanan (IC 24152A), SIGS., 21st Dec. 1988.
 E. Balachandran (IC 24153H), ENGRS., 21st Dec. 1988.
 D.S.R. Vinod (IC 24158F), ENGRS., 21st Dec. 1988.
 P. Sinha (IC 24161F), EME., 21st Dec. 1988.
 R.K. Bhatnagar (IC 24165X), ENGRS., 21st Dec. 1988.
 O.P. Sharma (IC 17213K), AOC., 25th Dec. 1988.
 K.S. Rajwa (IC 26095H), AC., 28th Dec. 1988.
 V.D. Patil (IC-19039F), INF., 16th Dec. 1988.
 S.S. Pradhan (IC-19057K), ARTY., 16th Dec. 1988.
 O.P. Gulia (IC 19081A), AOC., 16th Dec. 1988.
 R.K. Arya (IC 19085W), AOC., 16th Dec. 1988.
 M.J. Varughes (IC 19095A), ASC., 16th Dec. 1988.
 D.S. Khanka (IC 19103N), INF., 16th Dec. 1988.
 P. Sirobi (IC 19112P), ASC., 16th Dec. 1988.
 P. Sengupta (IC 19136Y), AOC., 16th Dec. 1988.
 R.S. Chhikara (IC 19141K), ARTY., 16th Dec. 1988.
 D.V.R. Nair (IC 19143P), ARTY., 16th Dec. 1988.
 S. Bhunya (IC 19167Y), AOC., 16th Dec. 1988.
 Balwinder Singh (IC 19169K), ASC., 16th Dec. 1988.
 A.N. Chaturvedi (IC 19171F), INF., 16th Dec. 1988.
 U.S. Chhetri (IC 19176A), INF., 16th Dec. 1988.
 Partap Singh (IC 19188P), ARTY., 16th Dec. 1988.
 N.K. Ramadasan (IC 19191P), INF., 16th Dec. 1988.
 S.N. Sharma (IC 19194H), AEC., 16th Dec. 1988.
 K.N. Bhatt (IC 19196N), AEC., 16th Dec. 1988.
 P. Rangarao (IC 19200L), ARTY., 16th Dec. 1988.
 B.K. Limbu (IC 19201N), INF., 16th Dec. 1988.
 Sudreshwar Singh (IC 19202W), INF., 16th Dec. 1988.
 D.K. Joshi (IC 19209A), ENGRS., 16th Dec. 1988.
 Amar Singh Rana (IC 19210P), ASC., 16th Dec. 1988.
 M.S. Jadhav (IC 19211X), INF., 16th Dec. 1988.
 S.K. Mandal (IC 19212A), ASC., 16th Dec. 1988.
 Ram Singh (IC 19214L), ASC., 16th Dec. 1988.
 R.L. Sharma (IC 19218F), ARTY., 16th Dec. 1988.
 Hardial Singh (IC 19220Y), INF., 16th Dec. 1988.
 O.P. Yadav (IC 19226A), ARTY., 16th Dec. 1988.
 S.N. Banerjee (IC 19231L), INF., 16th Dec. 1988.

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Majors to be Substantive Lt Cols (By Time-Scale)

P. Namgyal (IC 17098P), INF., 15th Sep 1988.
 R. S. Sharma (IC 26251F), ASC., 16th Sep 1988.
 L. S. Rathore (IC 26478P), INF., 03rd Oct 1988.
 Anil Kabotra (IC 26483A), AC., 03rd Oct 1988.
 B. C. Mangain (IC 26493X), AC., 03rd Oct 1988.
 G. S. Bist (IC 26662A), INF., 03rd Oct 1988.
 R. Venkataraman (IC 26680H), INF., 03rd Oct 1988.

Y. C. GUPTA, Lt Col
 Assistant Military Secretary

No. 1391, dated 21st September, 1989.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Capt to be Major

B. C. Panda (IC 19750) Sigs, 16 Jun 79.
 SK Mohan (IC 17510) Inf, 25 Dec 1979.
 Ram Lal (IC 23207) ASC, 05 Sep 1988.
 R. Swaminathan (IC 28813) Engrs, 05 Sep 1988.
 R N Bajpai (IC 29001) AOC, RC Kathuria (IC 29081) EME, Ajay Bhatia (IC 29083) Inf, 05 Sep 1988.
 KK Nagal (IC 27152) EME, 31 Mar 1983.
 Zuzart Victor (IC 29240), Sigs, 04 Feb 1985.
 A K Mohan (IC 29553) AOC, 5 Sep 1988.
 Raghbir Singh (IC 29819) Sigs, 05 Sep 1986.
 (But for pay and allowances wef 05 Sep 1988).
 SK Mehdiratta (IC 29874) ASC, 05 Sep 1986.
 (But for pay and allowances wef 05 Sep 1988).
 K P M Nair (SL 3584), 07 Sep 1988.
 B Suryavanshi (IC 33127) Inf and Vinod Milton (IC 33224) AOC 18 Oct 84. (But for pay and allowances wef 05 Sep 88).
 RS Joon (IC 25719) Arty 24 Aug 87.
 Anil Sood (IC 25704) Sigs, AS Sahota (IC 25696), Vijay Thorat (IC 25733) ASC and VS Sangwan (IC 25685) AOC 24 May 87.
 (But for pay and allowances wef 07 Sep 87).
 R Maledath (IC 32392) Engrs, Jugal Kishore (IC 32203), DK Srivastava (IC 32413) ASC, V Ramaswamy (IC 32368) AOC and JM Rosemeyer (IC 32113) INT 14 Aug 84.
 (But for pay and allowances wef 17 Nov 86)
 CP Varghese (IC 32477) INT 06 Aug 84.
 (But for pay and allowances wef 17 Nov 86).
 Supriyo Sen (IC 30288) EME and HC Babbar (IC 30313) Engrs 13 Apr 88.
 (But for pay and allowances wef 05 Sep 88),
 PA Kumar (IC 33315) INT 31 Jan 85,

(But for pay and allowances wef 07 Sep 87).

YK Singh (IC 33394) AC 31 Jan 85.

(But for pay and allowances wef 05 Sep 88).

Amolak Singh (IC 27136) ASC 05 Jan 88.

(But for pay and allowances wef 05 Sep 88).

BB Vasanth (IC 36650) Engrs, 19 May 85.

(Pay and allowances wef 01 Jun 88).

SB Kulkarni (IC 32678) Arty, Joshi Purshottam (IC 32664) Sigs, RS Dheendsa (IC 32539) ASC and YK Gokhale (IC 32606) AOC 27 Nov 84.

Charanjit Singh (IC 32576) Arty 27 May 85.

(But for pay and allowances wef 07 Sep 87).

AA Kanetkar (IC 33508) ASC, HS Sidhu (IC 33597) ASC, DJ Rao (IC 33632) ASC, VPS Tanwar (IC 33649) Inf and D. Bahadur (IC 33599) Arty 26 Jun 85.

(But for pay and allowances 07 Sep 87).

KS Sahrawat (IC 30544) Inf 16 Jun 89.

Anuj Kumar Mathur (IC 41794) ASC 17 Dec 1985.

(But for pay and allowances wef 6 Jun 86).

MS Gurung (IC 27468) Arty 13 April 87.

CK Vasudev (IC 30974) EMF, 12 April 87.

(But for pay and allowances wef 5 Sep 88).

Om Prakash (IC 31638), AK Holkar (IC 31745) Inf, KLDG Rose (IC 31752) Int, RD Mehta (IC 31794) Int, SM Gopalan (IC 31839) Int, SP Sahi (IC 31875) Arty, 13 Jun 87.

BS Sidhu (IC 30908) and RS Verma (IC 30916) Arty 05 Sep 86.

(But for pay and allowances wef 05 Sep 88).

V Udaya Shankar (IC 31307) Engrs 18 Oct 86.

(But for pay and allowances wef 05 Sep 88).

BN Thorat (IC 27808) Arty R Ramamurthy (IC 27867) Sigs 19 Oct 86.

(But for pay and allowances wef 05 Sep 88).

S. Devashikamani (IC 33983) Arty and D Vaidyanathan (IC 36025) EME 05 Sep 86.

(But for pay and allowances wef 05 Sep 88).

GL Gupta (IC 36560) EME and NP Swamy (IC 36573) Engrs 21 Apr 87.

R Balasundaram (IC 37150) EME 16 May 87.

JK Virmani (IC 37312) Engrs 31 Oct 87.

RS Pathania (IC 30226) AOC and HG Lamoury (IC 30002) Arty 5 Sep 86.

(But for pay and allowances wef 05 Sep 88).

Gajendra Singh (IC 34812) Inf 17 Dec 88.

AK Malhotra (IC 36790) Arty IJS Bhullar (IC 36801), ML Ubhan (IC 36804) Inf, Arun Kumar (IC 36806) AC, Haripal Singh (IC 36812) Arty, Dillip Kumar (IC 36827) EME, Lakhvir Singh (IC 36833) Arty, KK Sharma (IC 36837) Arty, NS Gulia (IC 36846) Inf, Satinder Jit Singh (IC 36858) Arty, US Chhabra (IC 36857) Inf, PS Soini (IC 36724), Desh Raj (IC 36733), Ranjit Singh (IC 36746), Paramjeet Singh (IC 36753) Arty, AK Tuli (IC 36769) HP Singh (IC 36775) Arty, PK Dharmani (IC 36778) Engrs, 20 Apr 88.

Y. C. GUPTA, Lt Col AMS 8

No. 1392, dated 21st September, 1989.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
2/LT TO BE LT

AA Pol (IC 43733) Inf, Yogesh Sehgal (IC 43734) Engrs, Rajeev Thopar (IC 43737) Inf, S Parthasarathy (IC 43738) Sigs, Rahul Srivastava (IC 43739) Inf, Dheeraj Chandola (IC 43740) Sigs, Naresh Rana (IC 43742) Inf, RR Singh (IC 43743) Inf, BD Joshi (IC 43744) Engrs, Govind Singh (IC 43745) Inf, Sanjeev Dhillon (IC 43747) AC, YS Redhu (IC 43748) Mech/Inf, MS Natu (IC 43749) ASC GS Virk (IC 43750) Inf, BS Anjla (IC 43751) Inf, R Rajeev (IC 43752) Sigs, RS Yadav (IC 43754) Inf, ACB Singh (IC 43755) Engrs, Sanjeev Langleh (IC 43756) Inf, Thomas MC (IC 43758) Inf, SB Kasar (IC 43759) Mech/Inf, Gurinder Singh (IC 43760) Engrs, SS Sidhu (IC 43761) AC, Niren Bharti (IC 43762) Inf, Narendra Singh (IC 43765) Inf 14 Jun 88.

SV Singh (IC 44014) AEC, B Bandopadhyaya (IC 44019) AOC, BS Prasad (IC 44020) AEC 14 Jun 88.

Ashutosh Kale (IC 43766) Inf, MK Rastogi (IC 43768) Inf, Shashi Bhushan (IC 43770) Inf, Ominder Singh (IC 43772) Inf, Naresh Kumar (IC 43773) ASC, PK Mathur (IC 43775) Sig, AK Rohilla (IC 43776) Inf, PP Oak (IC 43777) Arty, Ajay Kaila (IC 43778) EMF, Dipak Banerjee (IC 43780) Inf, RP Sharma (IC 43782) Inf, KS Sharawat (IC 43783) Inf, AK Kalia (IC 43785) Sigs, Ralse Alam Khan (IC 43786) AC, PV Janardhanan (IC 43787) Engrs, Sandeep Jaitely (IC 43788) AOC, Vivek Muthana (IC 43789) Inf, MU Reddy (IC 43791) Sigs, JK Chaurasia (IC 43793) Inf, Samir Gupta (IC 43796) Arty, VK Patpatia (IC 43799) Inf, RB Singh (IC 43802) Inf, Atulkochar (IC 43805) Inf, Jayadev K (IC 43807) Sigs, MB Singh (IC 43808) AC 14 Jun 1988.

Bishan Dutt (IC 43811) Inf, BK Bhalsingh (IC 43813) Inf, KS Kataria (IC 43816) ASC, Ninad G Railkar (IC 43817) Sigs, RN Pandey (IC 43818) Arty, AP Kumar (IC 43819) Inf, Gogireddy S Reddy (IC 43820) Inf, NS Mangat (IC 43821) ASC, NR Babu (IC 43822) Inf, HS Aulakh (IC 43824) ASC, SKM Sreedharan (IC 43825) Engrs, SS Narayanan (IC 43827) Engrs, Ashok Kumar (IC 43828) Inf, RS Hooda (IC 43829) Inf, Benny Sebastian (IC 43830) Inf, VN Khadilkar (IC 43831) Sigs, Rajinder Kumar (IC 43837) Sigs, RB Patil (IC 43840) AOC, Gautam KN (IC 43841) Inf, Adish Yadav (IC 43843) Inf, BS Nahal (IC 43844) Arty, Sanjive Singh (IC 43845) Inf, Arun Kumar (IC 43846) Inf, Virender Singh (IC 43851) AC, Vijaya Kumar (IC 43852) Inf, Guriit Singh (IC 43853) Inf, SG Sarpotdar (IC 43855) Mech/Inf., Manjit Kumar (IC 43858) Sigs 14 Jun 88.

Santano Ghosh (IC-43952) Inf, I J Singh (IC-43953) Mech/Inf, S K Sangwan (IC-43954) Inf, K R Nair (IC-43955) Engrs, Sandeep Shankla (IC-43956) Inf, Bikram Singh (IC-43958) Inf, S V Singh (IC-43959) Inf, Pravin Vikram (IC-43961) Inf, Shafee Jacob (IC-43963) AOC, Pivush Agnihotri (IC-43964) Engrs, V P Singh (IC-43965) Inf, Sanjay Kapoor (IC-43966) Engrs, Rakesh Juneja (IC-43969) Sigs, Rajeev Sharma (IC-43971) Inf, Arun Sindhvani (IC 43972) AOC, M K Tuli (IC-43973) Inf, Alok Sharma (IC-43974) EMF, S. K. Sinha (IC-43976) Arty, Arun Krishnan Kuttv (IC-43977) Inf, Sudershan Singh (IC-43979) Inf, Chander Shekher (IC-43982) Engrs, Naveen Malhotra (IC-43984) Arty, S K Samanta (IC-43986) Sigs, P K Wadia (IC-43988) Inf, Y V S Jamwal (IC-43989) ASC, V R Kumar (IC-43993) ASC, 14 Jun 88.

Phalguni Mukherjee (IC-43903) Inf, A P Singh (IC-43904) Inf, D S Chauhan (IC-43905) Inf, K K Sharma (IC 43907) Sigs, Vishvaiket Singh (IC-43909) ASC, Aseem Joshi (IC-43910) Inf, Sharad Tandon (IC-43912) ASC, S K Bharamasettor (IC-43913) Engrs, A K Patra (IC-43915) Arty, R K Talwar (IC-43916) AOC, Rajib Mandal (IC-43918) Inf, Bhoop Singh (IC-43919) Inf, J K Raj (IC-43921) Inf, Shahidul Islam (IC-43922) Inf, Rajiv Kapoor (IC-43923) Inf, A S Gill (IC-43926) ASC, Ramesh Kumar (IC-43927) Inf, Abhay Singh (IC-43930) ASC, Vitendra Singh (IC-43931) Inf, Arun Pandey (IC-43935),

Inf, Sugahan V K (IC-43937) Inf, S B Herlekar (IC-43939) Engrs, R S Locham (IC-43941) ASC, Sanjay Khattri (IC 43943) Inf., Sumitro Das (IC 43946) EME, Diganta Chaudhary (IC-43948) Inf, J S Bakshi (IC-43949) AC, 14 Jun 1988.

Kalyan Singh (IC-43688) Inf, P S Bajwa (IC-43689) Inf, Bose V B (IC-43691) ASC, Ravinder Singh (IC-43693) AC, A S Taggarse (IC-43695) Engrs, Sarab Jit Singh (IC-43696) AOC Patanjali Rahul (IC 43702) Arty, B R Sarma (IC-43705) Inf, R K Sharma (IC-43706) Sigs, P Patnain (IC-43708) Inf., Deepak Malhotra (IC-43711) Sigs, A B K Sibal (IC-43712) Engrs, R Malhotra (IC-43713) Inf, P K Singh (IC-43715) Inf, Mukund Sharma (IC-43717) Engrs, D S Yadav (IC-43718) Inf, S S Dabas (IC-43719) Inf, Ajay Tripathi (IC-43720) AC, D K Singh (IC-43722) Inf, H K Pant (IC-43723) ASC, M K Katiyar (IC-43725) Inf, Bahadur Singh (IC-43727) AUC, R Raksena (IC-43729) Inf, Vikrant Nayyar (IC-43730) AC, Sandeep Pande (IC-43731) Inf, 14 Jun 1988.

Sanrendra Mohan Kumar (IC-43653) Mech/Inf, R S Kataria (IC-43654) Mech/Inf, K Vinod Kumar (IC-43655) Sigs, Hari Singh (IC-43658) Engrs, Sudhir Kumar (IC-43659) EME, Sanjay Babbar (IC-43660) AC, R Pillai B (IC-43661) EME, Sanjiv Munj (IC-43662) AC, Nipun Dwivedi (IC-43663) Mech/Inf, A K Soni (IC-43664) Engrs, Suhel Singh (IC-43665) AC, Balbir Singh (IC-43666) AC, Sunil Kumar N V (IC-43668) Inf, Shiv Pal Singh (IC-43669) Inf, Amarjot Singh (IC-43670) AC, R K Chikara (IC-43671) Inf, Sudhanshu Verma (IC-43672) AOC, S R Dhaga (IC-43675) Sigs, Rajinder Singh (IC-43676) Inf, G P S Sisodiya (IC-43679) Inf, A Karmakar (IC-43681) Inf, A K Samantara (IC-43682) Inf, J B Chaudhari (IC-43684) Inf, Bhupender Singh (IC-43685) Inf, Sanjiv Rai (IC-43686) Inf, Vivek Sharma (IC-43687) Inf, 14 Jun 1988.

H S GILL (IC-43859) ASC, M B Kadam (IC-43860) Inf, Ajay Ahoja (IC-43862) Engrs, Sanjay Pandey (IC-43865) Inf, A M Gade (IC-43867) Sigs, Biswajit Das (IC-43868) Inf, S C Sharma (IC-43870) Sigs, S K Jena (IC-43871) Inf, Pradeep Bhatia (IC-43872) Inf, Vijay Mehta (IC-43875) Inf, U Sundaram (IC-43878) Inf, Suneet Chaturvedi (IC 43880) ASC, Suprio Bhattacharya (IC-43882) Engrs, Sureesh Sharma (IC-43883) ASC, N K Singh (IC-43885) Inf, Anshu Teri (IC-43887) ASC, A K G Kamoji (IC-43888) Engrs, A K Saksena (IC-43889) Inf, K S Uppal (IC-43890) AOC, Pawan Mehrotra (IC-43891) Inf, Veeresh Bhadur (IC-43894) Inf, SPS Senger (IC-43896) Sigs, Sandeep Sud (IC-43897) Inf, R S Hans (IC-43898) EME, H M Maheshwari (IC-43899) Inf, 14 Jun 1988.

AR Chandorkar (IC-44190), Inf, 20 Dec 1988.

Y. C. GUPTA, Lt Col
AMS 8

(ARMY BRANCH)

No. 1993, dated 25th September, 1989.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
INTELLIGENCE CORPS
To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Ashok Kumar Tiwari (JC-97411A), 01 August 1989.

REGULAR ARMY
INTELLIGENCE CORPS
(To be Nb Sub)

Hav Gurmeet Singh (No. 1258699P now JC-185145-P), 24 Jun 89.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 89 without effect on pay and allowances).

Hav Ramjit Singh Yadav (No. 13849052F now JC-185146-X), 01 Jun 89.

Hav Jagmal Singh (No. 1259380F now JC-185147-A), 01 Jul 89.

284GI/89

(To be Nb Sub/Clk)

Hav (Clk) Sashi Mohan Hazarika (No. 6646061Y now JC-185148-H), 01 Jul 89.

Hav (Clk) Mohan Singh Bhandari (No. 6646448F now JC-185149-L), 01 Jul 89.

Hav (Clk) Bela Singh Chandail (No. 1444693M now JC-185150-A), 01 Jul 89.

Hav (Clk) Jaswant Singh (No. 1285571N now JC-185588 W), 01 Jul 89.

REGULAR ARMY
INTELLIGENCE CORPS

To be Sub

Nb Sub Ranjeet Singh (JC-135385W), 01 August 1989.

Nb Sub Raghunath Singh (JC-136023F), 01 August 1989.

Nb Sub Kashmir Singh (JC-134451F), 01 August 1989.

Nb Sub Virendra Singh Kushwah (JC-136025M), 01 August 1989.

Nb Sub Shiv Sharan Singh (JC-137156K), 01 August 1989.

Nb Sub Hridya Narain Paswan (JC-136091P), 01 August 1989.

Nb Sub Hukam Singh (JC-137500K), 01 August 1989.

Nb Sub Chandra Singh Rawat (JC-137157M), 01 August 1989.

Nb Sub Radha Ballabh Joshi (JC-137501M), 01 August 1989.

Nb Sub Naresh Chandra Bhatt (JC-137160M), 01 August 1989.

Nb Sub Baidya Nath Roy (JC-140324H), 01 August 1989.

Nb Sub Tej Bahadur Raj (JC 137503X), 01 August 1989.

V. DHARMA RAO, Desk Officer

(ARMY BRANCH)

No. 1394, dated 25th September, 1989.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hav Shiv Raj Singh (No. 14312214X now JC-185589-Y), 1st Apr 88.

BHM Ram Bhaj (No. 1287412P now JC-185590-N), 1st Jul 88.

Hav Ram Lakhani Tripathi (No. 1251159N now JC-185591-W), 29th Aug 88.

Hav Vishwa Nath Singh (No 1242576Y now JC-185592-Y), 21st Dec 88.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Sep 88 without effect on pay and allowances).

Hav Parmanand (No. 8019400Y now JC-185593-F), 16th Sep 88.

Hav Jagdish (No. 1279799N now JC-185594-K), 23rd Sep 88.

Hav Amrik Singh (No. 1260677P now JC-185595-M), 26th Sep 88.

Hav Ram Bahadur Singh (No. 13809283P now JC-185596-P), 1st Oct 88.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 26th Sep 88 without effect on pay and allowances).

Hav Sube Singh (No. 1262339W now JC-185597-X), 13th Jan 89.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Oct 88 without effect on pay and allowances).

BHM Dadasaheb Desai (No. 1298743W now JC-185598-A), 13th Oct 88.

Hav Dashrath Singh Chauhan (No. 1254531I, now JC-185599-H), 1st Nov 88.

Hav Anant Ram (No. 1243809F now JC-185600-M), 16th Nov 88.

Hav Pantap Singh Yadava (No. 1264850I, now JC-185601-P), 20th Feb. 89.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Dec 88 without effect on pay and allowances).

Hav Pandurang Sambaji Lokhande (No. 1257813P now JC-185602-X), 17th Dec 88.

Hav Pritam Chand Nagra (No. 1251744M now JC-185603-A), 7th Jan 89.

Hav Pargat Singh (No. 1252159A now JC-185604-H), 18th Jan 89.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12th Jan 89 without effect on pay and allowances).

Hav Vishnu Rama Utekar (No. 1263305P now JC-185605-L), 25th Jan 89.

Hav Raj Nath Singh (No. 1247750K now JC-185606-N), 28th Jan 89.

Hav Bamdev (No. 1264040 H now JC-185607-W), 1st Feb 89.

Hav Jai Prakash (No. 13856464I, now JC-185608-Y), 6th Feb 89

Hav Hem Raj Varma (No. 13856386Y now JC-185609-F), 6th Feb 89.

Hav K Muthu (No. 14323516K now JC-185610-W), 20th Feb 89.

Hav Karimpil Scariam Varughese (No. 14307564A now JC-185611-Y), 20th Feb 89.

Hav Tejinder Singh (No. 1238108F now JC-185612-F), 1st Mar 89.

Ram Kishan Yadava (No. 1244778Y now JC-185613-K), 1st Mar 89.

Hav Khyali Ram Bugalia (No. 1262243N now JC-185615-P), 1st Apr 89.

Hav Banta Singh (No. 14303743H now JC-185616-X), 1st Apr 89

Hav Gurdial Singh (No. 1290155N now JC-185617-A), 1st Jun 89.

T. B. NAIR, Desk Officer.

No. 1395, dated 25th September, 1989.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

MADRAS ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav K. Anandan (No. 1361049F now JC-182632K), 16 Dec 88.*

Hav M Kaliappan (No. 1354054K now JC-182633M), 01 Nov 88.

Hav U Sreedharan (No. 1357951I, now JC-182634P), 01 Nov 88.

Hav Muthukrishnadu (No. 1348509Y now JC-182635X), 01 Nov 88.

Hav N Mahendran (No. 1352080M now JC-182636-A), 01 Nov 88.@

Hav Govindaraj Gangadaran (No. 1354643A now JC-182637H), 07 Dec 88.@

Hav G Jeegarathinam (No. 1357060H now JC-182638L), 01 Dec 88.

Hav Pichamuthu (No. 1350502N now JC-182639N), 01 Dec 88.

Hav Daniel PV (No. 1360709F now JC-182640H), 01 Dec 88.

Hav Vijaya Pandian S (No. 1362083N now JC-182641L), 01 Dec 88.

Hav Kumar Umre Sab Thammanna (No. 1357753A now JC-182642N), 01 Dec 88.

Hav Sathana Palli Subba Rao (No. 1357912M now JC-182643W), 02 Dec 88.£

Hav Loganathan G (No. 1359159X now JC-182644Y), 01 Dec 88.

Hav Munisamy (No. 1350006M now JC-182645F), 01 Dec 88.

Hav Gurunath Mangne (No. 1361298A now JC-182646-K), 06 Dec 88.£

Hav Govindasamy (No. 1358660X now JC-182647M), 01 Dec 88.

Hav R Krishnan (No. 1358032H now JC-182648P), 05 Jan 89.£

Hav Guappa Kumbar (No. 14520604Y now JC-182649-X), 01 Dec 88.

Hav R Padmanaban (No. 1354060X now JC-182650M), 01 Dec 88.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 88 without effect on pay and allowances.)

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 88 without effect on pay and allowances).

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 88 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Cik (GD)

Hav/Cik Shalk Mahaboob Sahib (No. 1352588W now JC-182624L), 01 Nov 88.

Hav/Cik Ramasamy Subbarayalu (No. 1352762X now JC-182625N), 01 Nov 88.

Hav/Cik Swamy Kannu Peter (No. 1352905M now JC-182626W), 01 Nov 88.

Hav/Cik Pandraved Venkatesa Mudali Thangavelu (No. 1352909H now JC-182627Y), 27 Nov 88.@

Hav/Cik Avanasappa Veluswamy (No. 1348005I, now JC-182628F), 20 Nov 88.*

Hav/Cik Muthiah Ramasamy (No. 1343490F now JC-182629K), 01 Nov 88.

To be Nb Sub SKT

Hav/SKT Karupiah Paulchamy (No. 1352661K now JC-182630Y), 01 Oct 88.

Hav/SKT Jayaseelan R (No. 1360219N now JC-182631Z), 01 Nov 88.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 88 without effect on pay and allowances)

*(Accelerated promotion and granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Sep 88 without effect on pay and allowances.)

Inf, Sugahan V K (IC-43937) Inf, S B Herlekar (IC-43939) Engrs, R S Locham (IC-43941) ASC, Sanjay Khattri (IC 43943) Inf., Sumitro Das (IC 43946) EME, Diganta Chaudhary (IC-43948) Inf, J S Bakshi (IC-43949) AC, 14 Jun 1988.

Kalyan Singh (IC-43688) Inf, P S Bajwa (IC-43689) Inf, Bose V B (IC-43691) ASC, Ravinder Singh (IC-43693) AC, A S Taggarse (IC-43695) Engrs, Sarabjit Singh (IC-43696) AOC Patanjali Rahul (IC 43702) Arty, B R Sarma (IC-43703) Inf, R K Sharma (IC-43706) Sigs, P Patnain (IC-43708) Int., Deepak Malhotra (IC-43711) Sigs, A B K Sibal (IC-43712) Engrs, R Malhotra (IC-43713) Inf, P K Singh (IC-43715) Inf, Mukund Sharma (IC-43717) Engrs, D S Yadav (IC-43718) Inf, S S Dabas (IC-43719) Inf, Ajay Tripathi (IC-43720) AC, D K Singh (IC-43722) Inf, H K Pant (IC-43723) ASC, M K Katiyar (IC-43725) Inf, Bahadur Singh (IC-43727) AUC, R Raksena (IC-43729) Inf, Vikrant Nayyar (IC-43730) AC, Sandeep Pande (IC-43731) Inf, 14 Jun 1988.

Sanrendra Mohan Kumar (IC-43653) Mech/Inf, R S Kataria (IC-43654) Mech/Inf, K Vinod Kumar (IC-43655) Sigs, Hari Singh (IC-43658) Engrs, Sudhir Kumar (IC-43659) EME, Sanjay Babbar (IC-43660) AC, R Pillai B (IC-43661) EME, Sanjiv Munj (IC-43662) AC, Nipun Dwivedi (IC-43663) Mech/Inf, A K Soni (IC-43664) Engrs, Suhel Singh (IC-43665) AC, Balbir Singh (IC-43666) AC, Sunil Kumar N V (IC-43668) Inf, Shiv Pal Singh (IC-43669) Inf, Amarjot Singh (IC-43670) AC, R K Chikara (IC-43671) Inf, Sudhanshu Verma (IC-43672) AOC, S R Dhaga (IC-43675) Sigs, Rajindor Singh (IC-43676) Inf, G P S Sisodiya (IC-43679) Inf, A Karmakar (IC-43681) Inf, A K Samantara (IC-43682) Inf, J B Chaudhari (IC-43684) Inf, Bhupender Singh (IC-43685) Inf, Sanjiv Rai (IC-43686) Inf, Vivek Sharma (IC-43687) Inf, 14 Jun 1988.

H S GILL (IC-43859) ASC, M B Kadam (IC-43860) Inf, Ajay Ahooja (IC-43862) Engrs, Sanjay Pandey (IC-43865) Inf, A M Gade (IC-43867) Sigs, Biswajit Das (IC-43868) Inf, S C Sharma (IC-43870) Sigs, S K Jena (IC-43871) Inf, Pradeep Bhatia (IC-43872) Inf, Vijay Mehta (IC-43875) Inf, U Sundaram (IC-43878) Inf, Suncet Chaturvedi (IC 43880) ASC, Suprio Bhattacharya (IC-43882) Engrs, Sureesh Sharma (IC-43883) ASC, N K Singh (IC-43885) Inf, Anshu Teji (IC-43887) ASC, A K G Katoji (IC-43888) Engrs, A K Saksena (IC-43889) Inf, K S Uppal (IC-43890) AOC, Pawan Mehrotra (IC-43891) Inf, Veeresh Bhadur (IC-43894) Inf, SPS Senger (IC-43896) Sigs, Sandeep Sud (IC-43897) Inf, R S Hans (IC-43898) PME, H M Maheshwari (IC-43899) Inf, 14 Jun 1988.

AR Chandorkar (IC-44190). Inf, 20 Dec 1988.

Y. C. GUPTA, Lt Col
AMS 8

(ARMY BRANCH)

No. 1993, dated 25th September, 1989.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
INTELLIGENCE CORPS
To be Sub Maj (Clk)

Subj (Clk) Ashok Kumar Tiwari (JC-97411A), 01 August 1989.

REGULAR ARMY
INTELLIGENCE CORPS
(To be Nb Sub)

Hay Gurneet Singh (No. 1258699P now IC-185145-P), 24 Jun 89.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub with effect 01 Apr 89 without effect on pay and allowances).

Hay Ramjit Singh Yadav (No. 13849022F now IC-185146-X), 01 Jun 89.

Hay Lalraj Singh (No. 1259380J now IC-185147-A), 01 Jul 89.

28-AGI/89

(To be Nb Sub/Clk)

Hay (Clk) Sashi Mohan Hazarika (No. 6646061Y now JC-185148-H), 01 Jul 89.

Hay (Clk) Mohan Singh Bhandari (No. 6646448F now JC-185149-L), 01 Jul 89.

Hay (Clk) Bela Singh Chandail (No. 1444593M now IC-185150-A), 01 Jul 89.

Hay (Clk) Jaswant Singh (No. 1285571N now JC-185588-W), 01 Jul 89.

REGULAR ARMY
INTELLIGENCE CORPS

To be Sub

Nb Sub Ranjeet Singh (JC-135385W), 01 August 1989.

Nb Sub Raghunath Singh (JC-136023F), 01 August 1989.

Nb Sub Kashmir Singh (JC-134451F), 01 August 1989.

Nb Sub Virendra Singh Kushwah (JC-136025M), 01 August 1989.

Nb Sub Shiv Sharan Singh (JC-137156K), 01 August 1989.

Nb Sub H. dya Narain Paswan (JC-136091P), 01 August 1989.

Nb Sub Hakam Singh (JC-137500K), 01 August 1989.

Nb Sub Chandra Singh Rawal (JC-137157M), 01 August 1989.

Nb Sub Radha Ballabh Joshi (JC-137501M), 01 August 1989.

Nb Sub Naresh Chandra Bhatt (JC-137160M), 01 August 1989.

Nb Sub Baidya Nath Roy (JC-140324H), 01 August 1989.

Nb Sub Tej Bahadur Raj (JC 137503X), 01 August 1989.

V. DHARMA RAO, Desk Officer

(ARMY BRANCH)

No. 1394, dated 25th September, 1989.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hay Shiv Raj Singh (No. 10312214X now JC-185589-Y), 1st Apr 88.

BHM Ram Bhaj (No. 1287412P now IC-185590-N), 1st Jul 88.

Hay Ram Laxman Tripathi (No. 1251159N now JC-185591-W), 29th Aug 88.

Hay Vishwa Nath Singh (No 1242576Y now JC-185592-Y), 21st Dec 88.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Sep 88 without effect on pay and allowances).

Hay Parmanand (No. 8019400Y now JC-185593-F), 16th Sep 88.

Hay Jagdish (No. 1279799N now JC-185594-K), 23rd Sep 88.

Hay Amril Singh (No. 1260677P now JC-185595-M), 26th Sep 88.

Hay Jai Bahadur Singh (No. 13809283P now IC-185596-P), 1st Oct 88.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 26th Sep 88 without effect on pay and allowances).

REGULAR ARMY

Corps of Engineers

Bombay Engineer Group

To be Nb Sub (SKT)

Hav Dalip Singh (No. 1536929L now JC-182623 H), 8th Dec 1988.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Nov 1988 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav Ram Dhan (No. 1532924A now JC-182609 W), 20th May 1988*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 20th May 1988 with effect on pay and allowances).

Hav Bhagirath Gurung (No. 1540448 F now JC-182610-L), 26th Nov 1988**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Oct 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Nebu Lal (No. 1535863Y now JC-182611 N), 24th Nov 1988@

Hav Kishan Swaroop (No. 1540466K now JC-182612 W), 5th Dec 1988.@

Hav T K Varghese (No. 1539098N now JC-182613 Y), 10th Dec 1988@

Hav Mahandar Singh Yadava (No. 1540305F now JC-182614 F), 14th Dec 1988@

Hav Tehal Singh (No. 1537302H now JC-182615 K), 31st Dec 1988@

Hav Chandra Pratap Singh (No. 1538916X now JC-182616 M), 31st Dec 1988@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Nov 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Lal (No. 1539053N now JC-182617 P), 9th Dec 1988 £

Hav Mohan Singh (No. 1540458L now JC 182618 X), 9th Dec 1988 £

Hav Dilbara Singh (No. 1539650H now JC-182619 A), 16th Dec 1988 £

Hav Savant Krishna (No. 1540459N now JC-182620 P), 16th Dec 1988 £

Hav Gian Singh (No. 1533869 F now JC-182621X), 5th Jan 1989 £

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Dec 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Yashpaul Singh (No. 1540573L now JC-182622A), 2nd Feb 1989.&

& (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Feb 1989 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav Harnek Singh (No. 1565775X now JC-182571 X), 20th Aug 1988×

× (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Aug 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Kanwal Singh (No. 1539451P now JC-182572 A), 19th Sep 1988*

Hav Resham Singh (No. 1538741A now JC-182573 H), 11th Dec 1988*

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Sept 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Sarwan Singh (No. 1533085A now JC-182574L), 19th Nov 1988**

Hav Vasakha Singh (No. 1541835H now JC-182575 N), 21st Nov 1988**

Hav Sabir Ali Ansari (No. 1565695P now JC-182576 W), 25th Nov 1988**

Hav Darshan Singh (No. 1538775N now JC-182577 Y), 28th Nov 1988**

Hav Amrik Singh (No. 1534383H now JC-182578F), 28th Nov 1988**

Hav Lal Chand Sharma (No. 1538366A now JC-182579-K), 5th Dec 1988**

Hav Shamrao Bolake (No. 1537433N now JC-182580 Y), 9th Dec 1988**

Hav Gurcharan Singh (No. 1565182L now JC-182581 F), 19th Dec 1988**

Hav Tara Singh (No. 1564782F now JC-182582 K), 20th Dec 1988**

Hav Bakhtuar Singh (No. 1541220X now JC-182583 M), 20th Dec 1988**

Hav K Balakrishna Pillai (No. 1564573K now JC-182584-P), 21st Dec 1988**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Oct 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Babanrao Mane (No. 1566193K now JC-182585 X), 10th Nov 1988@

Hav Gurdev Singh (No. 1538763Y now JC 182586 A), 10th Nov 1988@

Hav Uttam Jagtap (No. 1566014Y now JC 182587 H), 15th Nov 1988@

Hav Baldev Singh (No. 1539692P now JC-182588 L), 19th Nov 1988@

Hav Shekh Mohuddin (No. 1565443N now JC-182589 N), 20th Nov 1988@

Hav Balasaheb Ethape (No. 1565959W now JC-182590-H), 23rd Nov 1988@

Hav Shinde Hanuman (No. 1539014P now JC-182591-L), 5th Dec 1988@

Hav Gurdev Singh (No. 1565867K now JC-182592 N), 8th Dec 1988@

Hav Resham Singh (No. 1539081A now JC-182593 W), 26th Dec 1988@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Nov 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Kashmir Singh (No. 1539157P now JC-182594 Y), 15th Dec 1988 £

Hav Prabhat Bhosle (No. 1565650A now JC-182595 F), 19th Dec 1988 £

Hav Chhajju Singh (No. 1539128A now JC-182596 K), 20th Dec 1988 £

Hav Shahad Soyed (No. 1539861L now JC-182597 M), 20th Dec 1988 £

Hav Gurnam Singh Bhatoya (No. 1542709H now JC-182598 P), 20th Dec 1988 £

Hav Namdeo More (No. 1539474W now JC-182599 X), 21st Dec 1988 £

Hav Jai Chand (No. 156507X now JC-182600 F), 21st Dec 1988 £

Hav Kamruddin Ahmed (No. 1540527W now JC-182601-K), 21st Dec 1988 £

Hav Daler Singh (No. 1536931N now JC-182602 M), 22nd Dec 1988 £

Hav Salunkhe Shrirang Pandurang (No. 1540339P now JC-182603 P), 24th Dec 1988 £

Hav Maqbool Alam (No. 1534607X now JC-182604 X), 26th Dec 1988 £

Hav Nirmal Singh (No. 1540564K now JC-182605 A), 27th Dec 1988 £

Hav Shankar Salunke (No. 1539487N now JC-182606 H), 1st Jan 1988 £

Hav Dattaram Yadhav (No. 1565501M now JC-182607-L), 4th Jan 1989 £

Hav Sahibrao Kasinath Sanap (No. 1540687W now JC-182608 N), 5th Jan 1989 £

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Dec 1988 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (SKT)

Hav Mala Ram Arya (No. 1536886M now JC-182570 P), 26th Oct 1988

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Oct 1988 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav Vithal Maruti Tathe (No. 1540418K now JC-182566 M), 17th Sep 1988*

Hav Sumer Singh Shekhawat (No. 1540018X now JC-182567 P), 28th Oct 1988*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Sep 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Brij Bihari Tiwari (No. 1540462N now JC-182568-X), 24th Oct 1988**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Oct 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Anorej Singh Sandhu (No. 1540512N now JC-182569-A), 24th Nov 1988@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Nov 1988 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav Vilas Chaugule (No. 1565758X now JC-182552-M), 25th Sep 1988<

< (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Aug 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Shirke Ramchandra Anant (No. 1541459A now JC-182553 P), 20th Oct 1988*

Hav Parashram Shrikisan Rant (No. 1541780K now JC-182554X), 20th Oct 1988*

Hav Killedar Janardhan Venkatesh (No. 1541518F now JC 182555 A), 22nd Oct 1988*

Hav Akhlaq Hussain (No. 1541559L now JC-182556 H), 24th Oct 1988*

Hav Krushna Wasule (No. 1541445A now JC-182557 L), 29th Oct 1988*

Hav Jagdip Singh (No. 14501016W now JC-182558 N), 21st Nov 1988*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w. 1st Oct 1988 without effect on pay and allowances)

Hav Suryakant Chavan (No. 1565877N now JC-18255 W), 10th Nov 1988@

Hav Gopal Sing Rawat (No. 1538347P now JC-182560-L), 12th Nov 1988@

Hav Ram Swarup (No. 1537982N now JC-182561 N), 14th Nov 1988@

Hav Karnail Singh (No. 1565729H now JC-182562 W), 15th Nov 1988@

Hav Pandit Sagare (No. 1565329 W now JC-182563 Y), 15th Nov 1988@

Hav Kale Dashrath Govind (No. 1542549N now JC-182564 F), 15th Nov 1988@

Hav Gurcharan Singh (No. 1538747F now JC-182565 K), 15th Nov 1988@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Nov 1988 without effect on pay and allowances).

MES Militarised Cadre

(To be Nb Sub)

Hav Soma Ram (No. 1531240X now JC-182525 H), 24th Jan 1989*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 24th June 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Krishna Rao Kulkarni (No. 1361853 H now JC-182526 L), 10th Aug 1988**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 15th July 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Kirpal Singh (No. 1449917L now JC-182527N), 05th Dec 1988%

Hav Laxmi Chand (No. 1451436X now JC-182528W), 14th Dec 1988%

Hav Kewla Nand Kandpal (No. 1450203K now JC-182529Y), 17th Dec 1988%

Hav A Paul Raj (No. 1363443L now JC-182530N), 04th Feb 1989%

Hav A Pullaiah (No. 1358779F now JC-182531W), 09th Jan 1989%

Hav Vir Singh (No. 1450421H now JC-182532Y), 27th Dec 1988%

Hav Devi Prasad Singh (No. 1453482L now JC-182533-F), 20th Dec 1988%

Hav Praknsh (No. 1456180K now JC-182534K), 19th Dec 1988%

Hav Kanhu Charan Sahoo (1457183K now JC-182535M), 28th Dec 1988%

Hav Gurmukh Singh Mangat (No. 1458320K now JC-182536P), 12th Jan 1989%

Hav Gurivelli Jagadheswara Rao (No. 1361691H now JC-182537X), 01st Dec 1988%

Hav Manivannan R (No. 1362714L now JC-182538A), 18th Jan 1989%

Hav C Ramalingam (No. 1363227X now JC-182539H), 20th Dec 1988%

Hav Bammidi Sundara Rao (No. 1363407A now JC-182540X), 19th Jan 1989%

Hav V Thiruvenkata Samy (No. 1364389P now JC-182541A), 21st Jan 1989%

Hav Ramappa (No. 1364944X now JC-182542H), 14th Dec 1988%

Hav Muhammad Ali CM (No. 1365066Y now JC-182543-L), 14th Feb 1989%

Hav Thippisetty Ranga Subbaiah (No. 1365290L now JC-182544N), 10th Dec 1988%

Hav Karnail Singh (No. 1541412P now JC-182545W), 19th Dec 1988%

Hav E S Raju (No. 1365691N now JC-182546W), 19th Dec 1988%

Hav William Mark Furtado (No. 1364961X now JC-182547F), 14th Dec 1988%

Hav K R Kannan (No. 1365028H now JC-182548K), 22nd Dec 1988%

Hav Mohanan Pillai R (No. 1365248M now JC-182549M), 20th Dec 1988%

M Yuva Raj (No. 1365462P now JC-182550F), 13th Jan 1989%

Hav Ponnusamy Saminathan (No. 1352053H now JC-182551K), 25th Jan 1989%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 11th Nov 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Chandan Singh (No. 1441488A now JC-182443A), 16th Jul 1988%

Hav Ram Singh (No. 1448687W now JC-182444H), 16th Jul 1988%

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Shish Ram (No. 1453198P now JC-182445L), 10 Sep 1988%

Hav Jaint Singh (No. 1402547L now JC-182446N), 11 Aug 1988%

Hav Ram Niwas Sharma (No. 1451613M now JC-182447W), 16 Sep 1988%

Hav Gulab Chand (No. 1402379X now JC-182448Y), 17 Aug 1988%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Aug 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Mamu Singh (No. 1402399I now JC-182449F), 01 Sep 1988%

Hav Sukhwant Singh (No. 1402555K now JC-182450W), 01 Sep 1988%

Hav Dabal Singh (No. 1402598Y now JC-182451Y), 01 Sep 1988%

Hav Harpal Singh (No. 1401706L now JC-182452F), 29 Oct 1988%

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Sep 1988 without on pay and allowances).

Hav Kunwar Singh Rawat (No. 1447326L now JC-182453K), 24 Oct 1988%

Hav Sarupinder Singh (No. 1448368K now JC-182454M), 30 Nov 1988%

Hav Prem Prasad Mundu (No. 1450382P now JC-182455P), 24 Oct 1988%

Hav Gian Singh (No. 1450385H now JC-182456X), 24 Oct 1988%

Hav Chandeshwar Prasad Singh (No. 145067W now JC-182457A), 24 Oct 1988%

Hav Ram Bilash Singh (No. 1450686M now JC-182458H), 21 Oct 1988%

Hav Shyam Baboo Singh (No. 1450858W now JC-182459L), 27 Oct 1988%

Hav Vishram Singh (No. 1451029P now JC-182460A), 15 Nov 1988%

Hav Jagdish Chander (No. 1450877F now JC-182461H), 19 Oct 1988%

Hav Harbans Singh (No. 1451457N now JC-182462L), 19 Dec 1988%

Hav Birj Mohan (No. 1401612N now JC-182463N), 19 Oct 1988%

Hav Jamuna Ram (No. 1496853W now JC-182464W), 24 Oct 1988%

Hav Kulwant Singh (No. 1447095A now JC-182465Y), 24 Oct 1988%

Hav Khem Bahadur Gurung (No. 1403699Y now JC-182466F), 25 Oct 1988%

Hav Sulakhan Singh (No. 1450066P now JC-182467K), 04 Nov 1988%

Hav Deo Shaher Subbu (No. 1402455M now JC-182468M), 22 Oct 88. @

Hav Ram Dayal Singh (No. 1450443F now JC-182469P), 15 Nov 88. @

Hav Abal Singh (No. 1402695W now JC-182470K), 24 Oct 88. @

Hav Fredirck Paul Toppo (No. 1450707X now JC-182471M), 22 Oct 88. @

Hav Nathu Ram (No. 1449958P now JC-182472P), 31 Oct 88. @

Hav Gurdial Singh (No. 1450700N now JC-182473X), 31 Oct 88. @

Hav Narender Kumar Singh (No. 1450748F now JC-182474A), 19 Oct 88. @

Hav Jagdish Singh (No. 1451188M now JC-182475H), 24 Oct 88. @

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 88 without effect on pay and allowances).

Hav Satish Mohan Kukreti (No. 1451350Y now JC-182476L), 15 Dec 88. £

Hav Shri Bhagwan Singh (No. 1451358L now JC-182477N), 06 Dec 88. £

Hav Navin Chandra (No. 1451474N now JC-182478W), 12 Dec 88. £

Hav Amar Singh (No. 1450983A now JC-182479Y), 13 Dec 88. £

Hav Naender Singh (No. 1451102H now JC-182480N), 14 Dec 88. £

Hav Udai Pratap Singh (No. 1451161P now JC-182481W), 07 Dec 88. £

Hav Uma Shanker Sharma (No. 1451594M now JC-182482Y), 06 Dec 88. £

Hav Shiv Raj Singh (No. 1542152A now JC-182483F), 13 Dec 88. £

Hav Karnail Singh (No. 1447945Y now JC-182484K), 12 Dec 88. £

Hav Mangal Dass (No. 1448636H now JC-182485M), 03 Dec 88. £

Hav Pratap Narayan Singh (No. 1449481L now JC-182486P), 05 Dec 88. £

Hav Prem Bahadur Gurung (No. 1402431P now JC-182487X), 05 Dec 88. £

Hav Bans Narain Roy (No. 1450165Y now JC-182488A), 06 Dec 88. £

Hav Nirmal Singh (No. 1451150H now JC-182489H), 10 Dec 88. £

Hav Dukkhi Singh (No. 1451173K now JC-182490X), 16 Dec 88. £

Hav Kirat Singh (No. 1451220L now JC-182491A), 12 Dec 88. £

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov 88 without effect on pay and allowances).

Hav Mathura Datt Joshi (No. 1402751K now JC-182492H), 17 Dec 88. &

Hav Anand Mani (No. 1402696Y now JC-182493L), 17 Dec 88. &

Hav Malkhan Singh (No 1451830H now JC-182494N) 17 Dec 88.&

Hav Udai Narain Dubey (No 1451844N now JC-182495W) 19 Dec 88.&

Hav Khazan Singh (No 1441663K now JC-182496Y) 26 Dec 88.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 88 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Ck

Hav Ck Marachhu Ram (No 1445229P now JC-182497F) 13 Sep 88.**

Hav Ck Jagat Singh Rautela (No 1445779X now JC-182498K) 28 Sep 88.**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Ck Prem Singh Bhatia (No 1445238W now JC-182499M) 03 Oct 88." "

Hav Ck Darbara Singh (No 1449006P now JC-182500W) 05 Sep 88." "

Hav Ck Satya Pal Singh (No 1448828A now JC-182501Y) 25 Oct. 88." "

" "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 88 without effect on pay and allowances).

Hav Ck Ramesh Kumar (No 1449298H now JC-182502F) 05 Nov 88.%%

Hav Ck Nalinder Singh (No 1446348X now JC-182503K) 10 Sep 88.%%

Hav Ck Ajai Kumar Vasishta (No 1445592L now JC-182504M) 09 Sep 88.%%

Hav Ck Ganesh Prasad Singh (No 1445761F now JC-182505F) 14 Sep 88.%%

Hav Ck Ram Raksh Pal (No. 1449233P now JC-182506X) 14 Oct 88.%%

%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 88 without effect on pay and allowances).

Hav Ck Nagendra Prasad Kukreti (No 1445855Y now JC-182507A) 01 Oct 88.@@

Hav Ck Sisir Kumar Datta (No 1445942M now JC-182508H) 10 Oct 88.@@

Hav Ck Tarkeshwar Prasad Singh (No 1446103F now JC-182509L) 03 Oct 88.@@

Hav Ck Brij Mohan Takhwal (No 1445937F now JC-182501A) 01 Oct 88.@@

Hav Ck Parshu Ram Singh (No 1446104K now JC-182511H) 01 Oct 88.@@

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 88 without effect on pay and allowances).

Hav Ck Diwan Singh Mehta (No 1446317X now JC-182512L) 01 Nov 88.££

Hav Ck Hardev Singh (No 1448722L now JC-182513N) 01 Nov 88.££

Hav Ck Suresh Chandra Sharma (No 1448843P now JC-182514W) 01 Nov 88.££

££ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 88 without effect on pay and allowances).

Hav Ck Ram Kumar Yadav (No 1449586P now JC-182515Y) 01 Dec 88.&&

Hav Ck Karamjit Singh (No 1459946N now JC-182516F) 01 Dec 88.&&

Hav Ck Uttam Singh (No 1449277M now JC-182517K) 01 Dec 88.&&

Hav Ck Jarnail Singh (No 1449293K now JC-182518M) 07 Dec 88.&&

&& (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 88 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Ck (Store)

Hav Ck (S) Manbar Singh Miyan (No 1446944K now JC-182519P) 28 Sep 88.***

Hav Ck (S) Bhagi Rath Sharma (No 1447136Y now JC-182520K) 19 Oct 88.***

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 88 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Svy

Hav Svy Jagu Singh (No 1448890M now JC-182521M) 11 Oct 88.'

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 88 without effect on pay and allowances).

Hav Svy Kurian KJ (No 1448741Y now JC-182522P), 03 Dec 88.'

%' (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 88 without effect on pay and allowances).

Hav Svy Bipin Bihari Singh (No 1448790F now JC-182523X) 15 Nov 88.@@@

@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 88 without effect on pay and allowances).

Hav Svy Phurba Tshering Lama (No 1446332M now JC-182524A) 13 Dec 88.£££

£££ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 88 without effect on pay and allowances).

HARISH CHANDRA, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 1396, dated the 25th September 1989.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Corps of Signals

To be Sub Major (F of S)

Sub Surender Pal (JC-76031N), 1st June 1989.

Sub Amar Nath Shrama (JC-76040P), 1st Jul 1989.

Sub Samir Kumar Maity (JC-77422L), 1st Aug 1989.

To be Sub Maj (Ck GD)

Sub Kailash Chander Sharma (JC-85502X), 1st June 1989.

Sub Darshan Lal (JC-85503A), 1st June 1989.

To be Sub Major (GD)

Sub Dewan Chand (JC-94900A), 1st June 1989.

Sub Diwan Singh (JC-94905Y), 1st June 1989.

Sub Shabaji Bhosale (JC-93454X), 1st June 1989.

T. B. NAIR,
Desk Officer

(ARMY BRANCH)

No. 1397, dated 1st September 1989.—The President is pleased to make the following promotions :—

*Remount and Veterinary Corps**To be Risaldar Major*

Ris (Dsr) Kishan Singh (RV-7360Y), 01 Jun 89.

Ris (Dsr) Sudhir Chandra Dey (RV-7362K), 01 Aug 89.

To be Risaldar

Nb Ris (Clk) Jai Shanker Pandey (RV-7450A), 01 Jun 89.

Nb Ris (Dsr) Prabhu Nath Yadav (RV-7471W), 01 Aug 89.

Nb Ris (BO) Prabhu Nath Prasad (RV-7475M), 01 Aug 89.

Nb Ris (Dsr) Om Prakash (RV-7479H), 01 Aug 89.

ANIL KUMAR,
Under Secy.

NATIONAL CADET CORPS

No. 1398, dated the 8th September 1989.—The President is pleased to discharge/relinquish the following lady part time officers from the National Cadet Corps with effect from the dates shown against their name. The period shown in brackets against their name shall not be counted towards seniority, promotion or any other benefits in the National Cadet Corps :—

*Girls Division (Junior Wing)**Tamil Nadu*

S/O P. M. Ramani Chamundeswari (NCCJ/GD/11121), 01-7-89 (01-7-89 to 17-8-89).

T/O D. Suguna (NCCJ/GD/11146), 01-7-89 (01-7-89 to 17-8-89).

B. B. MOHAPATRA,
Dy DG (P&F)

ARMY BRANCH

No. 1399, dated the 20th September 1989.—The President is pleased to release the undermentioned officer from Territorial Army service on completion of 7 years term of engagement :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

Lt Chandra Pal Verma (TA-41668) Engrs, 13 Apr 87 (AN).

Lt Bal Krishna (TA-4159) Engrs, 18 Apr 85 (AN).

Lt Surendra Kumar (TA-41625) Engrs, 12 Jun 86 (AN).

HD SINHA,
Under Secy.

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

No. 1400, dated the 20th September 1989.—On completion of the extended tenure of service, Shri M. P. Nagabhushan,

Scientist 'C', Aeronautical Development Establishment, Bangalore retired from service with effect from 31-5-1989 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 01-6-1989 (FN).

NARSINGH DASS,
Assist. Director (Personnel)

No. 1401, dated the 25th September 1989.—The President is pleased to retire the under mentioned officer from TA service on attaining the age of compulsory retirement with permission to retain his substantive rank :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

Lt Col (T.S.) PKR Nambiar (TA-40820) Inf, 31 Jul 88 (AN).

Maj MM Asthana (TA-41141) Infantry, 31 Jul 88 (AN).

Lt Col (T.S.) PRG Nair (TA-40896) Inf., 30 Nov 88 (AN)

Maj K M Goswami (TA-41441) Infantry, 30 Sep 88 (AN).

Lt Col (Time Scale) KS Negi (TA-40974) Infantry, 31 Jul 88 (AN).

Maj SSR Garikipati (TA-41455) Infantry, 30 Jun 87 (AN).

HD SINHA,
Under Secy.

ARMY BRANCH

(Military Engineer Service)

No. 1402, dated the 12th September 1989.—The undermentioned officer retired on superannuation from service with effect from the date indicated against his name :—

MES/148007 Shri S Rajaram SE (Pt) CE (T), 31 Aug 89 (AN).

R. R. KOSHAL,
Under Secy.

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 1403, dated the 26th July 1989.—In the Ministry of Defence Notification No. _____ dated _____ published in the Gazette of India on 29 Oct 88 under the heading Regular Army Permanent Commission.

For : Taranvir Singh CHADDHA (IC 44061X) SIGS
Read : Taranvir Singh (IC 44061X) SIGS.

The following amendment may please be made in Ministry of Defence Gazette of India notification No. 1108 dated 28 Apr 81 published on 23 May 81/under heading Regular Army/Permanent commission :—

For "IC-39056X"

Read "IC-39056H".

YG GUPTA,
Lt Col AMS (IC)

ARMY BRANCH
REGULAR ARMY
ARMY SERVICE CORPS
(Supply)
CORRIGENDUM

No. 1404, dated the 18th September 1989.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 2022 dated 29th Jul 1986 published in Gazette of India dated 18 Oct 1986 under Heading 'Regular Army' Army Service Corps (Supply) Sub Heading 'To be Substantive Subedar Major Clerk (GD) on page 1617' :—

For Paid Acting Subedar Major Ram Chander Malik (JC-59707P) 01 May 1986.

Read Paid Acting Subedar Major Ram Chander Malik (JC-59707P) 01 Jun 1983.

No. _____ dated _____ In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 650 dated 04 Mar 1987 published in Gazette of India dated 04 Apr 1987 under Heading 'Regular Army' Army Service Corps (Supply) Sub Heading 'To be Substantive Subedar Major Clerk (GD) on page 469' :—

For Paid Acting Subedar Major Karunakaran Nair MR (JC-59659A) 01 Aug 1986.

Read Paid Acting Subedar Major Karunakaran Nair MR (JC-59659A) 01 Sep 1985.

For Paid Acting Subedar Major Gauri Shanker Pandey (JC-59445K) 01 Aug 1986.

Read Paid Acting Subedar Major Gauri Shanker Pandey (JC-59445K) 01 Sep 1985.

No. _____ dated _____ In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 508 dated 16th March 1988 published in Gazette of India dated 16 Apr 1988 under Heading 'Regular Army' Army Service Corps (Supply) Sub Heading 'To be Substantive Subedar Major Clerk (GD) on page 569' :—

For Paid Acting Subedar Major Bimales Chandra Dutta (JC-60106W), 19 Jul 87.

Read Paid Acting Subedar Major Bimales Chandra Dutta (JC-60106W), 01 Apr 84

ANIL KUMAR,
Under Secy.

AIR BRANCH

No. 1405, dated the 25th September 1989.—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE

Sqn Ldr to be substantive Wg Cdr (time scale)

FLYING BRANCH

SC Mullick (11625) F(N)—18-5-89.

Vinod Kumar (11628) F(N)—18-5-89.

S Ahmed (11627) F(N)—18-5-89.

AI (L) BRANCH

NJ Mathew (11906)—30-5-89.

GP Rai (11907)—30-5-89.

PK Das (11902)—30-5-89.

GS Sodhi (11911)—30-5-89.

ADM BRANCH

Vinod Kumar (11602)—18-5-89.

R Narayan (11609)—18-5-89.

Avinash Chandra (11611)—18-5-89.

KM DAMODARAN,
Asstt Director of Pers (Officers)-2(A)

(NAVY BRANCH)
NAVAL HEADQUARTERS

No. 1406, dated the 25th September 1989.—Shri Dildar Singh, Stenographer Grade 'C' is appointed as Stenographer Grade 'B' (SPA) on temporary basis in the AFHQ Stenographers Service with effect from 1 Sep 1989 for a period upto and including 31 Dec 89 or till persons from the Select List become available, whichever is earlier.

T. S. SIAL,
UP MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI

(NAVY BRANCH)

No. 1407, dated the 2nd June 1989.—The President is pleased to make the following promotions :—

INDIAN NAVY
PERMANENT COMMISSION
SPECIAL DUTY LIST

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDPR)—Date of Promotion/
Seniority from

Panduran Barote (81586-Y)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDC)

Umesh Maharaj (82007-B)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Ramesh Pal (82008-F)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Birbal Singh (82009-H)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDB)

Narayan Prasad Mishra (83210-N)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDREG)

Chander Parkash (83964-A)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Satwinder Singh (83965-B)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDPT)

Rajinder Kumar Thakur (84316-A)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDAV)

Gurpratap Singh Bajwa (84613-A)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDS)

Ram Niwas (88595-A)—01 Oct 88/01 Oct 87

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDW)

Kommana Patta Bhi Ramaiah (89101-A)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDCAT)

Maruthu Sethu (89517-Y)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDAE)

Sudershan Singh (86050-T)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDP)

I akhbir Singh (86895-N), 01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDAL)

Sreedharan Gangaprasad (88117-R)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDAR)

Dipak Kumar Dey (88323-H)—01 Oct 88/01 Oct 87.

Acting Sub Lt to be Sub Lt (SDM)

Avinash Chandra (89761-A)—01 Oct 88/01 Oct 87.

No. _____ dated _____.—The President is pleased to make the following promotions in the Education Branch of the Indian Navy under the Regulations 167 and 168 of Regs Navy Part III Statutory and Ministry of Defence letter AD/2232/75/3798/NHQ/D(N.II) dated 21 Jul 76 :—

NAVY BRANCH

PERMANENT COMMISSION

Ag Sub Lieutenant to be sub Lieutenant—Date of Promotion/ Seniority from

Kumar Ashok (70289-Y)—18-8-87/18-8-86.
Kalavagunta Naga Rajasekhar (70290-Z)—18-8-87/18-8-86.
Abhyankar Anand Arvind (70296-N)—16-2-88/16-2-87.
Sharma Ashok Kumar (70304-F)—16-2-88/16-2-87.
Ravi Kumar Bontha (70307-N)—17-8-88/17-8-87.
Chakravarti Sandeep (70309-T)—17-8-88/17-8-87.
Jain Avaneesh (70310-W)—17-8-88/17-8-87.
Noor Khurram Shahzad (70311-Y)—17-8-88/17-8-87.
Sridhar SR (70312-Z)—17-8-88/17-8-87.

No. _____ date _____.—The President is pleased to make the following promotions in the Engineering Branch (Corps of Naval Constructors) of the Indian Navy under the provisions of Ministry of Defence letter NC/3066/NHQ/3182/D(N-II) dated 10 Jun 77 and Navy Order 127 of 79 :—

(NAVY BRANCH)

PERMANENT COMMISSION

Acting Sub Lt to be Sub Lieutenant for Date of Promotion/ Seniority from

Sharma Pawan Kumar (41151-D) 18 Aug 87/18 Aug 86,

Nair Balakrishnan Gopalakrishnan (41234-N) 17 Aug 88/17 Aug 87.

Jose F Vellara (41235-R) 17 Aug 88/17 Aug 87.

Menon Nirmal M (41236-T) 17 Aug 88/17 Aug 87.

Akilandan Ramachandran (41238-Y) 17 Aug 88/17 Aug 87.

Chakervarti Ravi Kumar (41252-B) 17 Aug 88/17 Aug 87.

Dewan Praveen Kumar (41253-F) 17 Aug 88/17 Aug 87.

Nadendla Raghu Ram (41255-K) 17 Aug 88/17 Aug 87.

Prem Chand S (41256-N) 17 Aug 88/17 Aug 87.

Sundaresan GS (41257-R) 17 Aug 88/17 Aug 87.

Shravanth Panayala (41258-T) 17 Aug 88/17 Aug 87.

Walimbe Bhasker (41259-W) 23 Aug 88/23 Aug 87.

Srinvasa Raghavan Bashyam (41262-A) 10 Sep 88/10 Sep 87.

RAM CHANDER
Dy Director of Personnel (JOA&R)

(NAVY BRANCH)

NAVAL HEADQUARTERS

No. 1408, dated 12th September, 1989.—On attaining the age of superannuation, Shri BD Negi, Stenographer Grade 'B' (SPA) retired from service with effect from 31 Aug 89 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 1 Sep 1989 (FN).

T. S. SIAL, Up Mukhya Prashasan Adhikari

No. 1409, dated 28th February, 1989.—The undermentioned Officers retired from Naval Service with effect from the dates shown against their names :—

INDIAN NAVY

(Permanent Commission)

EXECUTIVE BRANCH

Vice Admiral SM Gadihoke (00126K)—30 Jun 88 (AN).
Rear Admiral A Auditto (00176Z)—31 Jul 88 (AN).
Rear Admiral MM Chopra (60042H)—30 Jun 88 (AN).
Commodore VG Honnavar (60043K)—31 May 88 (AN).
Commodore JS Virk (60052P)—31 Aug 88 (AN).
Commodore SD Sharma (60045R)—30 Jun 88 (AN).
Commodore J Castelino (60082Z)—30 Jun 88 (AN).
Commodore KK Garg (00267F)—31 Aug 88 (AN).
Commander (TS) SM Dogra (00479N)—31 Aug 88 (AN).
Commander YS Kulkarni (00627Y)—30 Sep 88 (AN).

ELECTRICAL BRANCH

Commodore GP Kohly (50046R)—31 Oct 88 (AN).
Commander (TS) V Kumar (50068R)—31 Jul 88 (AN).

EDUCATION BRANCH

Commodore K Sankaranarayanan (70050B)—31 May 88 (AN).
Commander ML Makkar (70059Z)—30 Nov 88 (AN).
Commander SP Sharma (70062F)—30 Nov 88 (AN).
Commander PW Godbole (70060A)—31 Aug 88 (AN).

V. K. THAKUR
Dy. Director of Personnel (OA&R)

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 22nd September 1989

No. A-22012/2/89-Estt.I, dated 22nd September, 1989.—
The President is pleased to appoint Shri M. L. Kapoor, a permanent Grade I Officer of the CSS, as Deputy Financial Adviser in the Finance Division of the Ministry of Defence on ad-hoc basis for a period of 60 days with effect from the forenoon of the 27th July, 1989 or until further orders or till Shri Sanjaya Bahel, Director returns from consultancy assignment abroad, whichever is earlier.

No. A-19014/77-Estt-I, dated 26th September, 1989.—
The President is pleased to extend the period of deputation of Shri Karan Syal, an officer of the Indian Postal Service, with the Finance Division of the Ministry of Defence as Dy. Financial Adviser upto 31-5-1990 beyond 16-12-1989 on educational ground of his child on the existing terms and conditions.

RAJINDER MOHAN, Asstt. Financial Adviser (F)